दैनिक

लखनऊ से प्रकाशित एवं उ.प्र., बिहार ,झारखण्ड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, दिल्ली में प्रसारित

RNI-UPHIN/2014/58471

अमन लेखनी

अरबाज खान के हाथ लगी एक बड़ी फिल्म ....

जेम्स गन ने दिया बड़ा अपडेट....

वर्ष : 10 | अंक : 47 | लखनऊ, 25 जनवरी, गुरूवार 2024 | पृष्ठ : 08 | मूल्य : 2.00 रुपए

मौसम

अधिकतम तापमान 17.c

न्यूनतम तापमान 8.c

बाजार

सोना 5510/ g

चांदी 73.50/ g

सेंसेक्स 71,657.71

निफ्टी 21,618.70

संक्षिप्त समाचार

राहुल ने असम पुलिस को और प्राथमिकी दर्ज करने की चुनौती दी, कहा कि वह डरेंगे नहीं

नई दिल्ली, भीड़ को उकसाने के आरोप में गुवाहाटी पुलिस द्वारा राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने के एक दिन बाद कांग्रेस नेता ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्य को चुनौती दी कि वे जितना संभव हो उतने मामले दर्ज करें, लेकिन फिर भी वह डरेंगे नहीं। बारपेटा जिले में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सातवें दिन अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में कांग्रेस नेता ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की आलोचना की और उन पर जमीन और सुपारी से संबंधित कई आरोप लगाते हुए उन्हें देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री करार दिया। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि हिमंत विश्व शर्मा को यह विचार कैसे आया कि वह मामले दर्ज करके मुझे डरा सकते हैं। जितना संभव हो, उतने मामले दर्ज करें। 25 और मामले दर्ज करें, आप मुझे डरा नहीं सकते। भाजपा-आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) मुझे डरा नहीं सकते। गुवाहाटी पुलिस ने मंगलवार को राज्य की राजधानी में हिंसा के कृत्यों के लिए गांधी और अन्य नेताओं के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए एक प्राथमिकी दर्ज की। उन्होंने कहा, मैंने (नरेन्द्र) मोदी के खास दोस्त (गौतम) अडाणी के खिलाफ भाषण दिया और मेरे खिलाफ मामला दर्ज किया गया। फिर मुझे संसद से बाहर निकाल दिया गया और मेरा सरकारी आवास छीन लिया गया।

दिल्ली में ठंड से मामूली राहत, न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस

नई दिल्ली, दिल्ली में बुधवार को कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिली और राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो इस मौसम के औसत तापमान से एक डिग्री अधिक है। मौसम कार्यालय ने यह जानकारी दी। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में जनवरी में अब तक पांच ठंडे दिन और पांच शीतलहर वाले दिन अनुभव किए गए हैं जो पिछले 13 वर्षों में सबसे अधिक है। आईएमडी के अनुसार, शहर में मुख्यतः आसमान साफ रहा और मध्यम कोहरा देखा गया। दिल्ली की विभिन्न वेधशालाओं में मंगलवार देर रात दृश्यता में सुधार देखा गया। रात 11 बज कर 45 मिनट पर सफदरजंग में दृश्यता 500 मीटर और पालम में 700 मीटर दर्ज की गई। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर सुबह साढ़े पांच बजे से 600 मीटर की दृश्यता दर्ज की गई। भारतीय रेलवे के अनुसार, उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली 24 ट्रेनें एक से छह घंटे की देरी से चलीं। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी में सुबह नौ बजे एक्यूआई 392 दर्ज किया गया जबकि मंगलवार को एक्यूआई 376 दर्ज किया गया था। शून्य और 50 के बीच एक्यूआई को अच्छा, 51 और 100 के बीच संतोषजनक, 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 के बीच खराब, 301 और 400 के बीच बहुत खराब और 401 और 500 के बीच गंभीर श्रेणी में माना जाता है।

मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का शुभारम्भ किया

एजेंसी / अमन लेखनी समाचार

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश दिवस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का सशक्त माध्यम बना है। आज हम 7वें उत्तर प्रदेश दिवस के कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। यह वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। सप्तपुरियों में से एक अयोध्या धाम में प्रभु श्रीराम 500 वर्षों के लम्बे इन्तजार के बाद अपने स्वयं के धाम में विराजमान हुए हैं। उत्तर प्रदेश भारत का हृदयस्थल है। यह अत्यन्त प्राचीन काल से ही भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण केन्द्र बिन्दु रहा है। मुख्यमंत्री जी आज यहां अवध शिल्प ग्राम में उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का शुभारम्भ करने के बाद अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने इसरो की वैज्ञानिक डॉ0 रितु करिधल श्रीवास्तव तथा उद्यमी नवीन तिवारी को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रदान किया। उन्होंने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना तथा ओ0डी0ओ0पी0 योजना के अन्तर्गत 05-05 हस्तशिल्पियों एवं कारीगरों को टूलकिट का वितरण किया। मुख्यमंत्री जी ने एम0एस0एम0ई0 पुरस्कार के अन्तर्गत 01 उद्यमी को उत्तर प्रदेश उद्यमी पुरस्कार प्रदान किया। उन्होंने सूक्ष्म उद्यम श्रेणी, लघु उद्यम श्रेणी, मध्यम उद्यम श्रेणी तथा सर्वश्रेणी के अन्तर्गत 01-01 उद्यमी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया। मुख्यमंत्री जी ने विशिष्ट हस्तशिल्प प्रादेशिक पुरस्कार के अन्तर्गत 04 लाभार्थियों को पुरस्कृत किया। उन्होंने एक हस्तशिल्पी को दक्षता पुरस्कार प्रदान किया। मुख्यमंत्री जी ने 03 बुनकरों को संतकबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार तथा 03 उद्यमियों को ईको एवं हेरिटेज टूरिज्म पुरस्कार वितरित किये। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के 06 विजेताओं को भी पुरस्कृत किया। मुख्यमंत्री जी ने ओ0डी0ओ0पी0 उत्पादों की ई-मार्केटिंग के लिए ओ0डी0ओ0पी0 मार्ट पोर्टल को लॉन्च किया। झांसी, अयोध्या, लखनऊ, पूर्वांचल तथा ब्रज सहित जम्मू-कश्मीर के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। इससे पूर्व, मुख्यमंत्री जी ने प्रदर्शनी का उद्घाटन कर अवलोकन किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्राचीन काल में भारत के 16 महाजनपदों में से 08-काशी, कौशल, मल्ल, चेदि, वत्स, कुरु, पाँचाल और शूरसेन उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आते थे। अलग-अलग समय में अवध, कान्यकुब्ज, काशी, रुहेलखण्ड तथा बुन्देलखण्ड उत्तर प्रदेश का भाग रहे। ब्रिटिश शासन के दौरान इसे पश्चिमी प्रान्त, उत्तर पश्चिम प्रान्त, आगरा और अवध का संयुक्त प्रान्त आदि नामों से जाना गया। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रान्त के नाम से जाना गया। 26 जनवरी, 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। इससे 02 दिन पूर्व 24 जनवरी, 1950 को एक नोटिफिकेशन के माध्यम से संयुक्त प्रान्त का नाम परिवर्तित कर उत्तर प्रदेश किया गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मार्च, 2017 में हमारी सरकार का गठन हुआ।

इंडिया गठबंधन को दोहरा झटका: बंगाल में ममता

पंजाब में मान का कांग्रेस से गठजोड़ न करने का ऐलान

एजेंसी / अमन लेखनी समाचार

नई दिल्ली, विपक्षी इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस (इंडिया) गठबंधन को दोहरा झटका देते हुए पश्चिम बंगाल और पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने बुधवार को कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों में उनके राज्यों में उनके दलों का कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के बीच सीटों के बंटवारे पर चल रहे टकराव के बीच आज अचानक घोषणा की कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में अकेले लोकसभा चुनाव में उतरेगी। इसी तरह की घोषणा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने की है। बनर्जी के बयान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने से एक दिन पहले आये हैं। ममता बनर्जी ने हावड़ा जिले में दुमुरजला हैलीपैड पर संवाददाताओं से बातचीत में कहा, मैंने उन्हें (कांग्रेस को) सीटों के बंटवारे पर एक प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने शुरू में ही इसे नकार दिया। हमारी पार्टी ने अब बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बनर्जी ने यह भी कहा कि पार्टी का राज्य में कांग्रेस से कोई रिश्ता नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने सीटों के बंटवारे पर चर्चा को लेकर मीडिया में आ रही खबरों का भी खंडन किया और कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर कांग्रेस में किसी से भी बात नहीं की है। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा से टकराने के लिए कुल 28 विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन का गठन किया था। सूत्रों के अनुसार, ममता की पार्टी की ओर से 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए उसे केवल दो सीट देने की पेशकश की गयी है जिसे लेकर दोनों दलों के बीच खींचतान बढ़ गयी है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीट हैं। पश्चिम बंगाल में सीट बंटवारे के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस के साथ गतिरोध के बीच कांग्रेस ने कहा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के बिना विपक्षी गठबंधन इंडिया की कल्पना नहीं की जा सकती।

हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने बेरोजगारी पर विपक्ष के दावों को राजनीतिक दुष्प्रचार बताया

एजेंसी / अमन लेखनी समाचार

नई दिल्ली, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विपक्षी दलों द्वारा बेरोजगारी के मुद्दे पर उनकी सरकार को निशाना बनाने पर बुधवार को पलटवार करते हुए कहा कि उनका दावा राजनीतिक दुष्प्रचार है। बेरोजगारी के संबंध में विपक्षी नेताओं की टिप्पणियों को खारिज करते हुए खट्टर ने कहा कि वे नौ प्रतिशत से 35 फीसदी तक के आंकड़ों का हवाला देते हैं। उन्होंने कहा कि वे (विपक्षी नेता) खुद बेरोजगारी दर का वास्तविक आंकड़ा नहीं जानते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वास्तविक बेरोजगारी दर लगभग 8.5 प्रतिशत है। खट्टर ने विपक्ष के 34 प्रतिशत तक के दावों को महज राजनीतिक दुष्प्रचार कहकर खारिज कर दिया। कारोबार करने में आसानी के मामले में हरियाणा की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए, खट्टर ने रेखांकित किया कि राज्य निवेश के लिए एक पसंदीदा स्थान बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में सरकार ने सफलतापूर्वक 30 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि बैंकों के माध्यम से व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार की सुविधा मुहैया कराने का भी प्रयास किया गया है। खट्टर हिसार जिले के लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित एक राज्य स्तरीय समारोह में 2,024 करोड़ रुपये की कुल 153 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे।

एनसीसी और एनएसएस कैडेट के कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी

आप जो भी करें, देश के लिए करें

एजेंसी / अमन लेखनी समाचार

नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में एनसीसी और एनएसएस कैडेट-स्वयंसेवकों के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने उनसे बातचीत भी की। इस दौरान मोदी ने कहा कि आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। यह हमारी बेटियों की उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन है। कल आप सभी ने देखा कि देश ने दिवंगत समाजवादी नेता कपूर्री ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा करके एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी के लिए कपूर्री ठाकुर जी के बारे में जानना, उनके जीवन से सीखना बहुत जरूरी है। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि उसे जननायक कपूर्री ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का मौका मिला।

मोदी ने कहा कि बेहद गरीबी और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियों से लड़ते हुए वे राष्ट्र जीवन में बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचे थे। वे दो बार बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे थे और इसके बावजूद, उन्होंने अपना निर्मल स्वभाव और समाज के लिए काम करना कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि जननायक कपूर्री ठाकुर हमेशा अपनी सादगी के लिए जाने जाते रहे। उनका पूरा जीवन सामाजिक न्याय और वंचितों के उत्थान के लिए समर्पित रहा। आज भी उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आपकी पीढ़ी खुद को जेन जेड कहती है। हालांकि, मेरा मानना है कि आप 'अमृत पीढी' हैं - क्योंकि आपकी ऊर्जा अमृत काल को गति देगी। आप सभी जानते हैं कि भारत ने 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का फैसला किया है। अगले 25 साल आपके और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि आप सभी जानते हैं कि भारत ने 2047 तक विकसित देश बनाने का संकल्प लिया है। अगले 25 वर्ष देश के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत अहम हैं। हमारा संकल्प है कि आपकी अमृत पीढ़ी का हर सपना पूरा हो। हमारा संकल्प है कि आपकी अमृत पीढ़ी के लिए अवसरों की भरमार हो। हमारा संकल्प है कि आपकी अमृत पीढ़ी के रास्ते की हर बाधा दूर हो।

नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृत काल की इस यात्रा में, ये हमेशा याद रखें कि आप जो भी करें, देश के लिए करें। 'राष्ट्र प्रथम' आपका मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं भी आपकी तरह NCC में रहा हूं। आपके बीच मैं उसी रास्ते से आया हूं। मैं जानता हूं कि एनसीसी, एनएसएस या सांस्कृतिक शिविर जैसी संस्थाएं युवाओं को समाज और नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है। उन्होंने कहा कि इस कड़ी में देश में एक और संगठन का निर्माण किया गया है।

तमिलनाडु में करुणानिधि के नाम पर जल्लीकट्टू स्टेडियम

कांस्य प्रतिमा भी बनी, सीएम स्टालिन ने किया उद्घाटन

एजेंसी / अमन लेखनी समाचार

नई दिल्ली, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बुधवार को मदुरै में अपने पिता और दिवंगत डीएमके संरक्षक एम करुणानिधि के नाम पर एक भव्य जल्लीकट्टू अखाड़े का उद्घाटन किया। कीलाकराई गांव में कलैगनार सेंटेनरी जल्लीकट्टू अखाड़ा 5,000 दर्शकों को रखने में सक्षम है। तमिलनाडु सरकार ने 44 करोड़ रुपये खर्च किये हैं और 66 एकड़ क्षेत्र में निर्माण कार्य किया जा रहा है। उद्घाटन के मौके पर एमके स्टालिन ने कहा कि 2014 में ऐसी स्थिति थी कि राज्य में जल्लीकट्टू का आयोजन नहीं हो सका और तीन साल बाद इस खेल को आयोजित करने की मांग को लेकर चेन्नई के मरीना में एक विशाल सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन किया गया।

उन्होंने तत्कालीन अन्नाद्रमुक सरकार पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर ₹हिंसा फैलाने₹ का आरोप लगाया, लेकिन शासन ने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शनों को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि लेकिन फिर भी, कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। हर साल, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जल्लीकट्टू की अनुमति देने के नाम पर एक नाटक करती है। इसका उद्घाटन लगभग 1,000 साल पुराने पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू उत्सव से पहले हो रहा है, जिसमें पुरुषों का एक समूह एक बैल की पीठ पर 'थिमिल' (कूबड़) को पकड़कर उसे वश में करने का प्रयास करता है।

नियमों के अनुसार, केवल एक ही वश में करने वाला व्यक्ति थिमिल को पकड़कर बैल की सवारी करने का प्रयास कर सकता है और उसे तब तक पकड़कर रखना होता है जब तक कि वह एक निश्चित दूरी पार न कर ले। यदि बैल एक ही स्थान पर खड़ा है, तो वश में करने वाले को उसे तब तक पकड़ने में सक्षम होना चाहिए जब तक कि वह तीन चक्कर पूरे न कर ले। 2014 में पशु क्रूरता का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद यह पारंपरिक खेल विवाद का केंद्र बन गया। भारी विरोध के बाद, तमिलनाडु सरकार ने 2017 में विधानसभा में एक संशोधन पारित किया, जिससे जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध हटा दिया गया।

गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर तंज

बोले- असम के सीएम की लोकप्रियता देख अपना धैर्य खो चुके हैं

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बुधवार को राज्य में चल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान हुए हंगामे के बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ₹असम के सीएम की लोकप्रियता₹ के कारण ₹अपना धैर्य खो चुके हैं₹। उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की लोकप्रियता के कारण राहुल गांधी ने अपना धैर्य खो दिया है...उन्हें (राहुल गांधी) अदालत में माफी मांगनी पड़ेगी। इससे पहले दिन में, कांग्रेस सांसद ने मंगलवार को सड़क अवरोध का सामना करने के बाद असम में अपना अभियान आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख यात्रा फिर से शुरू की। गुवाहाटी में निर्धारित प्रवेश से पहले, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया, जिससे झड़प हुई। इसके बाद, असम के सीएम ने राज्य पुलिस को राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल और कन्हैया कुमार सहित अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया। 11वें दिन यात्रा दोबारा शुरू करने से पहले राहुल गांधी ने हिमंत सरमा को 'सबसे भ्रष्ट सीएम' बताया. उन्होंने सरमा के नेतृत्व वाली असम सरकार को ₹जितना संभव हो उतने मामले दर्ज करने₹ की चुनौती दी और कहा कि वह डरेंगे नहीं।

ममता के बाद आप ने भी दिया कांग्रेस को झटका

भगवंत मान बोले- पंजाब में सभी सीटों पर अकेले लड़ेंगे चुनाव

एजेंसी / अमन लेखनी समाचार

नई दिल्ली, ममता बनर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल में टीएमसी के स्वतंत्र चुनाव लड़ने की घोषणा के तुरंत बाद, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) राज्य की सभी 13 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब में हम कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हमारा कांग्रेस के साथ कुछ भी नहीं है। गौरतलब है कि मान ने घोषणा की थी कि आप राज्य की सभी 13 लोकसभा सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल करने का भरोसा जताया है, जिसमें चंडीगढ़ को शामिल करके 14 सीटों तक विस्तार की संभावना है।

साथ ही मान ने दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए खुलेपन का भी संकेत दिया है। सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के अकेले आम चुनाव लड़ने के पंजाब इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पिछले हफ्ते भी मान ने कहा था कि आप पंजाब में सभी 13 सीटें जीतेगी। हालांकि, राज्य में कांग्रेस भी आप से गठबंधन कर चुनाव में नहीं लड़ना चाहती है। दोनों दल पंजाब में आमने-सामने रहे हैं।

विपक्ष के इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका देते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को घोषणा की कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) राज्य में आगामी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। उन्होंने महत्वपूर्ण चुनावों में अकेले लड़ने के अपने फैसले के लिए ब्लॉक के एक प्रमुख सदस्य, कांग्रेस के साथ सीट-साझाकरण वार्ता विफल होने का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें जो भी प्रस्ताव दिया, उन्होंने सभी को अस्वीकार कर दिया। बनर्जी ने कहा कि तब से, हमने बंगाल में अकेले जाने का फैसला किया है।

उत्तर प्रदेश को प्रभु श्रीरामलला और भगवान श्रीकृष्ण जी की चरण रज से पावन हुई भक्तिः विधायक धीरेंद्र सिंह

एजेंसी / अमन लेखनी समाचार

नोएडा। उत्तर प्रदेश के जेवर विधायक श्री धीरेंद्र सिंह जी ने आज नोएडा हाट में अयोजित उत्तर प्रदेश दिवस कार्यक्रम का फीता काट व दीप प्रज्ज्वलित कर शुभ आरंभ किया। उन्होंने कहा इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश का विकास हमारी प्राथमिकता है व उत्तर प्रदेश की विविध और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विविधता और विकास की प्रशंसा एवं प्रचार करना है। कार्यक्रम के शुरूवाती क्षण में उत्तर प्रदेश के मा० सम्मनित मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का लाइव उद्बोधन सुना। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के शिल्पकारों, कलाकारों और उद्यमियों के ओडीओपी उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। श्री धीरेंद्र सिंह जी ने इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता की बात की। विधायक जी ने कहा कि यह उत्तर प्रदेश सबसे पहले गौतम बुद्ध जी की कर्म स्थली रही है, उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है और इसका इतिहास, भूगोल, धर्म, भाषा, संगीत, कला, शिल्प, त्योहार, खाना और राजनीति बहुत ही विविध और रंगीन हैं।

श्री धीरेन्द्र सिंह जी ने कहा उत्तर प्रदेश आध्यात्मिक विरासत का गवाह है, उन्होंने अनेक पवित्र और प्राचीन तीर्थस्थलों का जिक्र किया, जिनमें अयोध्या, काशी, मथुरा, वृन्दावन, प्रयागराज, चित्रकूट, नैमिशारण्य, सरनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन स्थानों पर हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिख, इस्लाम और अन्य धर्मों के अनुयायियों का आगमन होता है और इन स्थानों पर अनेक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, स्तूप, विहार और अशोक के स्तंभ हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से कुछ तो विश्व धरोहर सूची में भी शामिल हैं।

श्री धीरेंद्र सिंह जी ने कहा उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबिंब है, उन्होनें इसकी अनूठी और अमूल्य कलाकृतियों का भी वर्णन किया, जिनमें ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ का बारा इमामबाड़ा, रामपुर का राजा महल, जौनपुर का अताला मस्जिद, वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या का राम जन्मभूमि मंदिर, मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, वृन्दावन का प्रेम मंदिर, प्रयागराज का अकबर का किला, कानपुर का जामा मस्जिद, जहाँगीर का मकबरा, साहनी का हवेली आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इनके अलावा उत्तर प्रदेश की लोक कला, नृत्य, संगीत, साहित्य, भाषा और बोली भी इसकी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हैं। उन्होंने बताया उत्तर प्रदेश ने देश की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, डिजिटल पेमेंट में टॉप पर गंगा की सफाई में अग्रणी, गांवों का विद्युतीकरण और अन्य कई योजनाओं के माध्यम से विकास की नई ऊंचाइयों को छूने का काम किया है, उत्तर प्रदेश एक विकास का राज्य है, जिसने अपने उत्पादन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, पर्यटन, उर्जा, संचार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। उत्तर प्रदेश ने आर्थिक नियोजन की उपलब्धियों के लिए देश में पहली श्रेणी का स्थान प्राप्त किया है। श्री धीरेन्द्र सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के लोगों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान का समर्थन करने और उत्तर प्रदेश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों की मेहनत, उद्यमिता और नवाचार से उत्तर प्रदेश का विकास होगा और देश का विकास होगा। कार्यक्रम में उपस्थित केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं से लाभवानवित लाभार्थियों को प्रमाण पत्र व टूल किट वितरित किया।

संक्षेप

अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अश्लील फोटो और वीडियो अपलोड करने की रिपोर्ट दर्ज

अमन लेखनी समाचार

सरोजनीनगर लखनऊ। सरोजनीनगर इलाके में रहने वाले एक युवक ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बहनों की अश्लील फोटो और वीडियो उसकी मां के मोबाइल नंबर पर अपलोड करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित युवक का कहना है कि आरोपी प्रतिदिन उनकी रील और वीडियो स्टेटस पर लगाता है। जानकारी होने के बाद इसकी सूचना साइबर सेल को दी गई। इसके बाद सरोजनीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी का पता लगा रही है।

33केवी लाइन से तार चोरी करने वाले अज्ञात चोरो पर मुकदमा दर्ज

मोहनलालगंज ।मोहनलालगंज क्षेत्र के पुरसैनी गांव की नहर से होते हुये समेसी विद्युत उपकेन्द्र जाने वाली 33केवी पोषक लाइन आठ स्पेन का तार व एक पोल का क्रास आर्म काटकर बैखोफ चोर बीती दस जनवरी की देर रात चोरी कर ले गये थे ।जिसके बाद 33केवी फीडर की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गयी थी ।समेसी उपकेन्द्र के जेई आशीष कुमार ने मगंलवार को पुलिस को तहरीर देकर अज्ञात चोरो पर कार्यवाही की मांग की ।इंस्पेक्टर आलोक राव ने बताया जेई के द्वारा दी गयी तहरीर पर अज्ञात चोरो पर मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी गयी हैं।

कपूर्री ठाकुर की जयन्ती पर श्रद्धा सुमन अर्पित

लखनऊ, कपूर्री ठाकुर की जयन्ती पर श्रद्धा सुमन अर्पित जनता एस के प्रदेश अध्यक्ष ओंकार सिंह के साथ मनोज शुक्ल शैलेंद्र सिह एडवोकेट राजू सिँह पटेल प्रदीप कनौजिया संजीव मिश्र ने गोमती नगर लखनऊ मे सोशलिस्ट लीडर जन नायक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूर्व मुख्यमंत्री स्व, कपूर्री ठाकुर जी को याद किया।

दबंगो ने खिलाड़ियों की पिटाई कर छीनी नगदी व ट्राफी, कार भी तोड़ी

अमन लेखनी समाचार

लखनऊ ।नगराम थाना क्षेत्र के एक गांव से फाइनल मैच जीत कर कार से निगोहां लौट रहे खिलाड़ियों पर गुज्जर गैंग के लग्जरी कारो व बाइको से सवार कई दर्जन दबंगो ने देवीखेड़ा पुलिया के पास जबरन कार रूकवाकर लोहे की राड व डंडो से हमला कर खिलाड़ियों की जमकर पिटाई कर घायल कर दिया ।दबंगो ने कार में तोड़फोड़ कर फाइनल मैच जीत के दस हजार रुपए व ट्राफी छीनकर मौके से भाग निकले ।गुज्जर गैंग के दबंगो का सड़क पर करीब एक घंटे तक चलता रहा ।लेकिन मुश्तैदी के दांवे करने वाली नगराम पुलिस को भनक तक नही लगी ।पीड़ित खिलाड़ियों ने नगराम थाने पहुंचकर पुलिस से लिखित शिकायत कर घटना को अजांम देने वाले एक नामजद समेत तीस अज्ञात के विरूद्व कार्यवाही के लिये तहरीर दी ।हालाकि पुलिस ने त्वरित कार्यवाही की बजाय जांच की बात कहकर पीड़ित खिलाड़ियों को चलता कर दिया।

निगोहां गांव निवासी सर्वेश शुक्ला ने बताया वो निगोहां क्रिकेट टीम के कप्तान है बुद्ववार की दोपहर को नगराम के रसूलपुर में आयोजित क्रिकेट टूनामेंट में फाइनल मैच जीत ?ने के बाद अपने कई खिलाड़ियों समेत उपविजेता सुदौली क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रिजवान मोहम्मद निवासी कुर्री सुदौली थाना बछरावा,रायबरेली के साथ अपनी कार से वापस निगोहां लौट रहा था,जैसे ही नगराम के देवीखेड़ा गांव के पास पहुंचे ही थे कि तभी सेमीफाइनल मैच हारे फत्तेखेड़ा टीम के मोहित निवासी फत्तेखेड़ा थाना मोहनलालगंज ने अपने दो लग्जरी कारो व बाइको से से आये गुज्जर गैंग के तीस से चालीस साथियो के साथ आकर उसकी कार को जबरन रोक लिया ओर लोहे की राड व डंडो से हमला कर कार में तोड़फोड़ करते हुये उसकी व खिलाड़ी रिजवान की जमकर पिटाई कर लहूलूहान कर घायल कर दिया ।जिसके बाद गैंग के सदस्य फाइनल मैच में जीती ट्राफी व दस हजार रुपए व उपविजेता टीम के खिलाड़ी की जेब में पड़े 5500रुपए छीनकर जान से मारने की धमकी देते हुये वाहनो व बाइको में सवार होकर मौके से भाग निकले ।घायल खिलाड़ियो ने प्राथमिक उपचार के बाद नगराम थाने पहुंचकर एक नामजद समेत तीस अज्ञात के विरूद्व तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्यवाही की मांग की ।पीड़ित खिलाड़ी ने बताया पुलिस ने आरोपियों पर त्वरित कार्यवाही की बजाय जांच की बात कहकर चलता कर दिया ।थाना प्रभारी विवेक चौधरी ने बताया तहरीर मिली है जांचकर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

सेमी फाइनल मैच हराने के बाद दी थी फाइनल ना खेलने की धमकी...

पीड़ित खिलाड़ी सर्वेश शुक्ला ने बताया टूनामेंट में मगंलवार को फत्तेखेड़ा व कुरी सुदौली टीमो के बीच सेमी फाइनल मैच हुआ था जिसमें फत्तेखेड़ा टीम हार गयी थी जिसके बाद हारी टीम के खिलाड़ी मोहित ने सुदौली टीम के खिलाड़ियों को फाइनल मैच ना खेलने की धमकी दी थी,बुद्ववार को उनकी निगोहां व सुदौली टीम के बीच फाइनल मैच हुआ जिसमें उनकी टीम जीत गयी थी ओर सुदौली टीम हार गयी थी ।जिसको लेकर ही रंजिश रखने वाले खिलाड़ी मोहित ने अपने गुज्जर गैंग के कई दर्जन साथियो के दिनदहाड़े रोककर बुरी तरह पिटाई के बाद कार में तोड़फोड़ कर जीत के पैसे व ट्राफी छीनकर भाग गयें ओर जाते जाते अपने आप को गुज्जर गैंग बताते हुये पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी।

मौसम खराब होने के कारण हवाई यातायात सुचारू रूप से संचालित नही हो सकी

अमन लेखनी समाचार

सरोजनीनगर लखनऊ। राजधनी के साथ ही देश के अन्य शहरों का मौसम खराब होने के कारण बुधवार को भी हवाई यातायात सुचारू रूप से संचालित नही हो सका। आलम यह है कि मौसम खराब होने के चलते कम दृश्यता के चलते एक उड़ान को जहां निरस्त कर दिया गया, वहीं करीब एक दर्जन उड़ानें अपने निर्धारित समय पर लैड एवं टेकआफ नही हो सकी। मौसम खराब होने के चलते चौधरी चरण सिंह अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट (2773) को रद्द कर दिया गया। एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक दुबई से लखनऊ आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान रात 12:55 बजे के बजाय सुबह 5:02 बजे, मस्कट से आने वाली ओमान एयरलाइंस की फ्लाइट सुबह 5:35 बजे के बजाय दोपहर 12:51 बजे, चंडीगढ़ से आने वाली इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट सुबह 08:15 बजे के बजाय दोपहर 01:28 बजे व मुंबई से आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट दोपहर 01:20 बजे के बजाय 02:45 बजे पहुंची। जबकि चौधरी चरण सिंह अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से मस्कट जाने वाली ओमान एयरलाइंस की फ्लाइट समय सुबह 06:55 बजे के बजाय दोपहर 02:08 बजे, इलाहाबाद जाने वाली इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट सुबह 08:50 बजे के बजाय दोपहर 03:19 बजे, गुवाहाटी जाने वाली इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट समय सुबह 09:05 बजे के बजाय दोपहर 02:20 बजे, पटना जाने वाली इंडिगो एयरलाइंस के फ्लाइट समय सुबह 09:25 बजे के बजाय दोपहर 01:23 बजे, मुंबई जाने वाली इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट दोपहर 01:50 बजे के बजाय 02:55 बजे व मुंबई जाने वाली एयर इंडिया एयरलाइंस की फ्लाइट दोपहर 2:00 बजे के बजाय 03:48 बजे से रवाना सकी।

बैग बनवाने वाली फैक्टरी में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख

अमन लेखनी समाचार

लखनऊ। अज्ञात कारणों के चलते कपड़े के बैग बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक लगी आग जिससे कर्मचारियों में अफरातफरी मच गई। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक मशीनों समेत लाखों का सामान जलकर राख हो गया था। माल थाना क्षेत्र के ग्राम आदमपुर निवासी सुरेश की उसी गावं में नोन ओवेन बैग फैक्ट्री है। इसमें कई प्रकार के कपड़े के थैले/बैग प्रिंटेड बैग बनाए जाते हैं। बुधवार दोपहर को अचानक फैक्ट्री में आग लग गई। इससे कर्मचारियों में अफरातफरी मच गई। आनन फानन पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन फैक्ट्री में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया था जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक रखा तीस लाख रुपये का कच्चा माल व लगी मशीन जलकर राख हो चुकी थी। पीड़ित सुरेश ने बताया कि बैंक से ऋण लेकर और स्वयं की जमा पूंजी लगाकर नोन ओवेन बैग/ थैला फैक्ट्री पीएम ईजी पी स्कीम के तहत पच्चीस लाख रुपए का बैंक से लोन लेकर लगाई थी। जिससे कार्य चल रहा था। अचानक बुधवार को आज्ञात कारणों के चलते फैक्ट्री में आग लग गई जिसमें मशीनरी और लाखों को बनाया हुआ माल और कच्चा माल जिसकी कीमत लगभग तीस लाख रुपए होगी सब जलकर राख हो गया। इस संबंध में माल थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है।

प्रधान संघ अध्यक्ष ने मिनी सचिवालय में मनाया राष्ट्रीय बालिका दिवस

अमन लेखनी समाचार

लखनऊ। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बुधवार को माल विकासखंड के अटारी पंचायत में स्थित मिनी सचिवालय में प्लान इंडिया के माध्यम से राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान संघ अध्यक्ष संयोगिता सिंह चौहान ने कहा कि समाज में नारियों/बेटियों के महत्व को बताते हुए बेटियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने एवं बेटियां भी किसी से काम नही है आज के युग में चाहे वह किसी दौड़ खेल क्यों न हो। कार्यक्रम के माध्यम से समाज में व्याप्त लैंगिक असमानताओं के बारे में बताया गया। राष्ट्र उद्देश्य भारतीय समाज में लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके अधिकारों, शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना है। इस विशेष दिन की शुरूआत 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लैंगिक

असमानता, लिंग-चयनात्मक गर्भपात और लड़कियों के खिलाफ भेदभाव जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए की गई थी। इस दिन का उत्सव लड़ ?कियों के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें सशक्त बनाने के महत्व पर जोर देता है। कार्यक्रम के माध्यम से बेटों और बेटियों को लैंगिक समानता, बेटियों के अधिकार और साइबरस्पेस में लिंग आधारित हिंसा की रोकथाम जैसे विषयों पर चर्चा की गई। लड़कियों और लड़कों को एक साइबर सुरक्षा स्कोर कार्ड वितरित किया गया। जिसके माध्यम से वे साइबर स्पेस के उपयोग के संबंध में अपने उच्च जोखिम वाले व्यवहार का आकलन कर सकते हैं। कार्यक्रम में प्लान इंडिया से शिवा सिंह (प्रोजेक्ट को ऑर्डिनेटर), राजकमल सिंह, प्रशांत तिवारी, रवीन्द्र कुमार मौर्य, अर्चना सिंह सहित अभिभावक बालक व बालिकाएं मौजूद रहे।

तीन भक्त पैदल ही राजस्थान के खाटू में श्याम बाबा के दर्शनो को हुये रवाना

अमन लेखनी समाचार

मोहनलालगंज ।श्री श्याम दीवाने मित्र मंडल सेवा समिति के तत्वावधान में मोहनलालगंज के कनकहा गांव से बुद्ववार को तीन भक्त निशान लेकर पैदल ही राजस्थान के खाटू में स्थित श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए रवाना हुए ।तीनो भक्त 800किलोमीटर की यात्रा साढे तीन हफ्तो में पूरी कर खाटू पहुंचकर बाबा श्याम को निशान अर्पित कर दर्शन करेगे ।मोहनलालगंज के कनकहा गांव की श्री श्याम दीवाने मित्र मंडल सेवा समिति के अध्यक्ष निरभान सिहं व संगठनमंत्री आदित्यपाल,सुमेर यादव निशान लेकर बुद्ववार को पैदल ही राजस्थान के खाटू में स्थित बाबा श्याम के दर्शनो को रवाना हुयें ।ग्रामीणो ने फूल माला पहनाकर व पुष्प यात्रा कर तीनो ही भक्त श्याम बाबा के पैदल दर्शनो को रवाना हुयें ।मोहनलालगंज बस स्टाप पर भाजपा मीडिया प्रकोष्ठ के जिला संयोजक अशोक तिवारी व सभासद हिमांशु तिवारी,वरिष्ठ पत्रकर मनोज यादव समेत दर्जनो लोगो ने खाटू श्याम बाबा की पैदल यात्रा पर निकले भक्त निरभान सिंह, आदित्यपाल, सुमेर यादव का फूल माला पहनाकर स्वागत किया ।जिसके बाद तीनो ही भक्त पैदल यात्रा पर रवाना हुये ।समिति के अध्यक्ष निरभान सिंह ने बताया 800किलोमीटर की यात्रा साढे तीन हफ्तो में पूरी कर खाटू में बाबा श्याम को निशान अर्पित कर दर्शन करेगे।

खेत में पानी लगा रहे किसान की धारदार हथियार से हत्या, मुकदमा दर्ज

पुलिस ने आरोपी कार चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी

अमन लेखनी समाचार

लखनऊ। सड़क किनारे पाइप बिछाकर पानी लगा रहे युवक पर कार सवार हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला कर लहूलुहान करते हुए फरार हो गए। सूचना पाकर खेत पर पहुंचे परिजनों ने गंभीर रूप से घायल को अस्पताल ले गए। जहां चिकित्साकों ने उसे को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने कार सहित चालक को दबोच लिया है।

घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया.

रहीमाबाद थाना क्षेत्र के जमोलिया निवासी जगदेव ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि बुधवार सुबह करीब साढ़े 8 बजे उसका पुत्र राजेश (45) जमोलिया गोसवा गावं के मध्य सड़क के किनारे पाइप बिछाकर अपने खेत में नलकूप से गेहूँ की फसल में पानी लगाने गया था तभी गोसवा निवासी कार चालक राहुल कुमार ब्लैक कलर की कार से चार पांच अज्ञात साथियों के साथ मिलकर धारदार हथियार से राजेश पर हमला कर दिया। शोरगुल की आवाज सुनकर कुछ दूरी पर कूडादान का निर्माण कर रहे लेबर दौड़े तो हमलावर वहां से भाग निकले। लेबरों ने राजेश पर हमला होने की सूचना परिजनों को दी। सूचना पाकर खेत पर पहुंचे परिजनों ने देखा राजेश लहू लुहान हालत में सड़क किनारे पड़ा है। परिजनों ने आनन फानन घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया हैं। मृतक के परिवार में पत्नी सरस्वती, बेटा रंजीत, अजीत, संजीत व शादीशुदा बेटी सोनी है। जिनका रो रोकर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार दोनों परिवारों में जमीनी विवाद को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। कहीं जमीनी विवाद तो नहीं बना मौत का कारण इस संबंध मे पुलिस उपायुक्त पश्चिमी राहुल राज का कहना है कि पिता की तहरीर पर चालक राहुल व पांच अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर चालक को हिरासत में ले लिया गया है। प्रथम दृष्टया से एक्सीडेंट का मामला सामने आ रहा है जिसकी जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

मृतक राजेश – फाइल फोटो

होटल में आयोजित कार्यक्रम की वजह से जाम में फंसी रही एंबुलेंस, तड़पता रहा मरीज

अमन लेखनी समाचार

सरोजनीनगर लखनऊ। सरोजनीनगर में बुधवार को एक होटल में आयोजित कार्यक्रम की वजह से कानपुर रोड का यातायात रोक दिया गया। जिसकी वजह से तमाम वाहन रोड जाम में बुरी तरह फंस गए। रोड पर दोनों ओर लंबा जाम लगने से मरीज को ले जा रही कई एंबुलेंस भी जाम में फंसी रही। रोड जाम होने से लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बताते चलें कि कानपुर रोड पर शहीद पथ तिराहे के पास मौजूद एक निजी होटल में अक्सर कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित होता रहता है। जिसमें किसी न किसी वीआईपी का आगमन होता है। बुधवार को भी इस होटल में वीआईपी आगमन को लेकर कानपुर रोड पर दोनों ओर का यातायात रोक दिया गया। ट्रैफिक रोके जाने से रोड की एक पटरी पर शहीद पथ तिराहे से बीमा अस्पताल तक, जबकि दूसरी पटरी पर एयरपोर्ट वीआईपी तिराहे से यातायात रोक जाने से नादरगंज तक वाहनों की लंबी कतार लग गई और तमाम वाहन जाम में फंस गए। इसी जाम में मरीज को ले जा रही कई एंबुलेंस भी करीब 20 मिनट तक फंसी रहीं। हालाकि मरीज की गंभीर हालत होने के कारण रास्ता पाने के लिए एक एंबुलेंस चालक लगातार सायरन बजाता रहा। एम्बुलेंस चालक ने इस दौरान जल्दी निकलने के लिए माइक से कई बार अनाउंसमेंट भी किया। लेकिन उसे रास्ता नहीं मिला। जिसके कारण कानपुर की ओर से आ रही एम्बुलेन्स चिल्लावां बाजार के सामने करीब 20 मिनट तक रुके यातायात में फंसी रही। ट्रैफिक रोकने की यह स्थिति यहाँ दो बार हुई। एक बार वीआईपी के आगमन के समय और दूसरी बार वीआईपी के जाने के वक्त पहले से ही यातायात ठप कर दिया गया। हालाकि यहां पर लगातार लग रहे जाम से छुटकारा पाने के लिए सरकार द्वारा बीते दिनों वीआईपी मूमेंट के लिए एयरपोर्ट से सीधे शहीद पथ रोड पर जाने का रास्ता भी बनाया जा चुका है। लेकिन इसके बावजूद अब इस होटल में आए दिन आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की वजह से यह नई समस्या फिर पैदा हो गई है। फिलहाल आए दिन इस होटल में हो रहे ऐसे कार्यक्रमों की वजह से यहां अक्सर जाम की समस्या उत्पन्न होती रहती है और राहगीरों को आने-जाने में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता रहता है।

जंगली जानवर ने गाय को बनाया निवाला, ग्रामीणों में दहशत

अमन लेखनी समाचार

लखनऊ। इलाके में मंगलवार देर रात जंगली जानवर ने हमला कर घर के बाहर बंधी गाय को शिकार बना डाला। इसके बाद से ग्रामीणों में दहशत है। बुधवार को ग्रामीणों ने बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया। उधर जांच करने पहुंची वन विभाग की टीम ने जंगली जानवर के पगमार्क के नमूने लेकर ग्रामीणों को सजग रहने की चेतावनी दी है।

माल थाना क्षेत्र के ग्राम पतौना निवासी नाहर रावत की गाय मंगलवार रात घर के बाहर बंधी थी। देर रात करीब साढ़े 11 बजे किसी जंगली जानवर ने गाय पर हमला कर उसको अपना शिकार बना डाला। देर रात जोर जोर आवाज सुनकर घर वाले बाहर निकले तो तब तक जंगली जानवर गाय को अपना निवाला बनकर भाग निकला शव के गर्दन के हिस्से में किसी जानवर के पंजे के निशान और वहां का मांस गायब मिला। कुछ ही देर में आसपास इलाके में जंगली जानवर की दहशत फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस व वन विभाग टीम के अधिकारियों को मामले की जानकारी दी गयी। इससे कुछ दिन पहले भी ग्रामीण कोलावा गावं के आसपास हिंसक जंगली जानवर होने की आशंका जाता रहे थे। पगमार्क लेकर खेतों में खाक छानती रही टीम जंगली जानवर की सूचना पर वन रेंजर आलोक कुमार तिवारी की टीम गांव पहुंची। घटनास्थल के आसपास और गांव के किनारे खेतों से जानवर के पगमार्क लेकर टीम ने जंगली जानवर होने का संदेह जताया। जानवर का पता चलने तक टीम ने बच्चों को अकेले बाहर नहीं जाने और ग्रामीणों से सजग रहने की अपील की। उधर जंगली जानवर की दहशत से बुधवार को पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। शाम को अंधेरा होने से पहले ही ग्रामीण घर पहुंच गए। मवेशियों को सुरक्षित रखने के लिए ग्रामीणों ने रतजगा करने की तैयारी की है। अभी कुछ स्पष्ट कहना जल्दबाजी वन रेंजर ने बताया कि लकड़बग्घे की आशंका बेहद कम लग रही है। पगमार्क से जैसे किसी अन्य जानवर की आशंका लग रही है। लेकिन स्थिति स्पष्ट करने के लिए वन विभाग की टीम लगातार गांव और आसपास इलाके की निगरानी करती रहेगी। लोगों को भी सजग किया गया है। अभी कुछ स्पष्ट कहना जल्दबाजी होगी।

राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर गोष्ठी आयोजित

अमन लेखनी समाचार

लखनऊ, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बुधवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में गोष्ठी आयोजित हुई गोष्ठी की अध्यक्षता कर हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. मनोज अग्रवाल ने बताया कि बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन होता है हर साल यह किसी न किसी थीम के साथ मनाया जाता है इस साल इस दिवस की थीम है झ ह्लडिजिटल जेनरेशन-हमारी जेनरेशनह्व उन्होंने कहा कि बालिकाओं को लेकर सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनमें बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, सुमंगला कन्या योजना प्रमुख हैं इसके साथ ही भ्रूण हत्या रोकने के लिए प्रसवपूर्व निदान तकनीकी,विनियमन एवं दुरुपयोग निवारण अधिनियम (पीसीपीएनडीटी), 1994 एक्ट अहम है लैंगिक विषमता जैसी सामाजिक कुरीतियों को भी दूरने के लिए अनेक प्रयास सरकार द्वारा और सामाजिक संस्थाओं द्वारा उठाए जा रहे हैं इस मौके पर पीसीपीएनडीटी के नोडल अधिकारी डा. के.डी. मिश्रा ने एक्ट की जानकारी देते हुए बताया कि भ्रूण हत्या रोकने के लिये यह अधिनियम सरकार द्वारा लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग की जांच करना या करवाना कानूनन दंडनीय अपराध है।

लिंग जांच करके बताने वाले को पाँच साल की सजा या एक लाख का जुमार्ना तो है ही साथ में जो व्यक्ति भ्रूण लिंग जांच करवाता है उस को को पाँच साल की सजा या 50,000 रुपये तक का जुमार्ना हो सकता है

नोडल अधिकारी ने बताया कि प्यारी बिटिया डॉट कॉम साइट के माध्यम से अल्ट्रासाउंड करने वाले डायगनोस्टिक केंद्रों और करवाने वालों की पूरी जानकारी रखी जाती है इसका लिंक है ६६६.स्त्र८१३.ड्ढं इस लिंक पर अल्ट्रासाउंड केंद्र द्वारा फॉर्म-एफ भरकर अपलोड किया जाता है। इसमें अल्ट्रासाउंड करने और करवाने वाले का सारा विवरण होता है और एक पंजीकरण नंबर भी होता है ।इस माध्यम से अल्ट्रासाउंड करवाने के उद्देश्य का भी पता चलता है ।

वरिष्ठ परामर्शदाता डा. आर.के. चौधरी ने जानकारी दी कि भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सरकार द्वारा ?मुखबिर योजना' चलाई जा रही हैं आम आदमी भी इस योजना से जुड़कर लिंग चयन/भ्रूण हत्या/अवैध गर्भपात में संलिप्त व्यक्तियों/ संस्थानों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही में सरकार की मदद कर सकते हैं और उसके एवज में सरकार से प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकते हैं मुखबिर योजना के तहत तीन सदस्यीय टीम का गठन किया जाता है जिसमें एक गर्भवती होती है जो भी व्यक्ति भ्रूण हत्या होने की सूचना टीम को देता है उसे इनाम के तौर पर दो लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है इस योजना की अहम बात है कि सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाता है टीम को भ्रूण हत्या करने वाले केंद्रों का स्टिंग ऑपरेशन करना होता है और इसका वीडियो बनाकर स्वास्थ्य विभाग को देना होता है ।इसके बाद स्वास्थ्य विभाग पुलिस को लेकर आगे की कार्यवाही करती है ।स्टिंग करने वाली टीम को प्रति स्टिंग दो लाख रुपए दिये जाने का प्रावधान है जिसमें एक लाख रुपए गर्भवती को, 60,000 रुपए मुखबिर को और 40,000 रुपए टीम के तीसरे सदस्य को दिए जाते हैं गोष्ठी में म यह जानकारी भी दी गई कि हर माह की एक, नौ 16 और 24 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस मनाया जाता है जिसके तहत दूसरी और तीसरी तिमाही की गर्भवती की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कर उच्च खतरे की गर्भावस्था की पहचान की जाती है और इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत अल्ट्रासाउंड सेंटर पर निशुल्क ई रूपी वाउचर के माध्यम से गर्भस्थ की जांच की सुविधा मुहैया कराई जा रही है इस मौके पर जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी योगेश रघुवंशी, विधिक सलाहकार प्रदीप कुमार मिश्रा, पटल सहायक संजीव श्रीवास्तव, पीसीपीएनडीटी के शादाब रसूल और सुधांशु कुमार श्रीवास्तव, पीएमएमवीईवाई के जिला समन्वयक सुधीर कुमार वर्मा , सभी सरकारी अस्पतालों की महिला रोग विशेषज्ञ और रेडियोलॉजिस्ट मौजूद रहें

संक्षेप

दो मोटरसाइकिल की भिड़ंत में एक युवक की मौत , चार जख्मी

अमन लेखनी समाचार

उन्नाव। फतेहपुर चौरासी थाना क्षेत्र के काली मिट्टी दबौली मार्ग स्थित कस्बा के अंदर मंगलवार देर रात दो बाइकों की सीधी भिड़ंत में युवक की मौत और किशोर समेत चार जख्मी हो गए। घायलों को निजी अस्पताल से लेकर सीएचसी पर भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज के बाद हालत नाजुक देख घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया है। जहां घायलों का इलाज चल रहा है। उधर, जानकारी पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फतेहपुर चौरासी थाना क्षेत्र के देवरिया गांव के रहने वाले राम जीवन, गुड्डू व परमेश्वर शाम को फतेहपुर चौरासी कस्बा आए हुए थे। अभी यह लोग कस्बे में काली मिट्टी दबौली मार्ग पर स्थित आलोक चौरसिया के मकान के पास ही पहुंचे थे। इसी दरम्यान देर रात सामने से आ रही दूसरी बाइक सवार बांगरमऊ थाना क्षेत्र के बल्देवखेड़ा गांव के रहने वाले मुकेश से उसकी बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों बाइकों पर सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। तभी बाइकों की चपेट में आने से मार्ग से पैदल गुजर रहा कस्बा निवासी पंद्रह वर्षीय किशोर अनमोल भी घायल हो गया। राहगीरों की मदद से घायलों को निजी अस्पताल एवं फतेहपुर चौरासी सीएचसी ले जाया गया। जहां डाक्टर ने प्राथमिक इलाज के बाद रामजीवन, गुड्डू एवं परमेश्वर की हालत नाजुक देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। घायलों के जिला अस्पताल की इमर्जेंसी पहुंचने पर डॉक्टर ने देवरिया गांव के रहने वाले कल्लू के पैंतालीस वर्षीय बेटा गुड्डू उर्फ राधेश्याम को मृत घोषित कर दिया। जबकि अन्य घायलों का इलाज चल रहा है। मौत की खबर मिलने पर परिजन रो-रोकर बेहाल होते रहे।

मार्ग दुर्घटना में साइकिल सवार श्रमिक की मौत

अमन लेखनी समाचार

उन्नाव। माखी थाना क्षेत्र के उन्नाव हरदोई मार्ग पर मंगलवार की देर रात मजदूरी कर साइकिल से घर लौट रहे श्रमिक को बाइक चालक से टक्कर मारने से मौत हो गई। जानकारी पर पुलिस ने जांच के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अकबरपुर दबौली मजरा रग्घाखेडा गांव के रहने वाले नन्हके उर्फ नान्हू लोध फैक्ट्री में काम करता था। देर रात वह साइकिल से घर लौट रहा था। शहर के दोस्तीनगर नहर पुल के पास बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को परिजनों से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज के बाद हालत नाजुक देख उसे हैलट रेफर कर दिया गया। परिजन अस्पताल ले जा रहे थे। तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई। मृतक नन्हके के बेटे ने बाइक नंबर के आधार पर पुलिस में तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया और जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की है।

त्रिदिवसीय विकास प्रदर्शनी का किया गया शुभारंभ

अमन लेखनी समाचार

उन्नाव। उत्तर प्रदेश दिवस 2024 के शुभ अवसर पर निराला प्रेक्षागृह, उन्नाव में जिला प्रशासन तथा जिला पर्यटन संस्कृति परिषद द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय विकास प्रदर्शनी का शुभारम्भ विधायक सदर पंकज गुप्ता एवं जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया।

प्रदर्शनी में स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पशु चिकित्सा विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, सूचना विभाग, कृषि विभाग, खादी ग्रामोद्योग विभाग, जिला उद्योग केन्द्र, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, मत्स्य विकास अभिकरण, बेसिक शिक्षा विभाग एवं यू0पी0नेडा आदि द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गयी। इस दौरान विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन करते हुए विधायक सदर एवं जिलाधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत विभिन्न लाभकारी योजनाओं में स्वीकृत किए गए रू0 273.2711 करोड़ धनराशि के सांकेतिक ऋण स्वीकृति चेक वितरित किए गए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों को सांकेतिक चाभियां व प्रमाण पत्र, कृषि विभाग द्वारा फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत ट्रैक्टर की चॉभी लाभार्थी कृषक को प्रदान की गयी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर आयोजित पोस्टर प्रतियोगिता के विजेता छात्र-छात्राओं व क्रीडा विभाग द्वारा करायी गयी खेल स्पधाओं में विजेता खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र वितरित किए गए। यूपी दिवस के अवसर पर निराला प्रेक्षागृह में सूचना विभाग से पंजीकृत आजाद आल्हा दल के द्वारा सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया गया। इसके साथ ही विभिन्न विद्यालयों के बच्चों द्वारा सरस्वती वन्दना, नाटक, लोक गायन, स्वागत गीत आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस दौरान श्रम विभाग के सौजन्य से सुहानी एवं सौरभ को विवेकानन्द यूथ अवार्ड से सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद विधायक ने उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि आज के दिन कराए गए इस भव्य आयोजन के लिए सभी संबंधित अधिकारी गण बधाई के पात्र हैं। प्रदेश के स्थापना दिवस को मनाए जाने का मूल उद्देश्य है कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत एवं गौरवशाली इतिहास को जानें और उससे प्रेरणा लेकर आगे बढें। उन्होंने कहा कि गत वर्षों में उ0प्र0 की छवि में कई क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं। यह युग परिवर्तन की बेला चल रही है जिसमें प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नित नए-नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। समाज के हर वर्ग को साथ लेकर सबका साथ-सबका विकास की भावना से प्रत्येक व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि शासन के निदेर्शानुसार जनपद में विभिन्न प्रकार के विकास कार्य कराए जा रहे हैं। इस प्रदर्शनी में सुझाव पेटिका भी रखी गयी है जिसके माध्यम से आप लोग जिला प्रशासन को अपने सुझाव प्रेषित कर सकते हैं।

इस अवसर पर एसपी सिद्धार्थ शंकर मीणा, सीडीओ ऋषिराज, डीडीओ संजय पाण्डेय, जिला समाज कल्याण अधिकारी डा0 नीलम सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी संगीता सिंह, उप निदेशक कृषि डा0 मुकुल तिवारी, एलडीएम सुनील वर्मा, पर्यटन सूचना अधिकारी सन्तोष कुमार सिंह सहित अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी गण आदि मौजूद रहे।

राष्ट्रीय बालिका दिवस के शुभ अवसर पर निकली जागरूकता रैली

अमन लेखनी समाचार/उमेश दीक्षित

हमीरपुर। पीसी पीएनडीटी कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय बालिका दिवस के शुभ अवसर पर जागरूकता रैली कलेक्ट्रेट के प्रांगण से मुख्य विकास अधिकारी चन्द्र शेखर शुक्ला तथा जिला विकास अधिकारी अजीत श्रीवास्तव द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के शुभ अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से बालिकाओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए यह रैली निकाली गई है, रैली कलेक्ट्रेट प्रांगण से, पेट्रोल पंप, किंग रोड होते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर आकर समाप्त हुई इसके बाद मुख्य विकास अधिकारी चन्द्र शेखर शुक्ला ने कहा कि इस वर्ष की थीम डिजिटल जेनरेशन.

अवर जनरेशन है उन्होंने कहा कि समाज में बालिकाओं की जरूरत उनके महत्व एवं उनके कार्यों पर प्रकाश डाला और कहा समाज एवं घर परिवार बालिकाओं की अनुपस्थिति में वीरान है उन्होंने बालिकाओं को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक तौर पर सशक्त होने के लिए जागरूक किया कहा कि यह अच्छा अवसर है जब हम अपनी बालिकाओं को सशक्त करने के लिए बुनियादी शिक्षा स्वास्थ्य पोषण अवसर की महानता एवं क्षमता आधारित भागीदारी सुनिश्चित करें, इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गीतम सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता जलीश खान सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहें।

एक दर्जन देवी देवताओं की गई प्राण प्रतिष्ठा भंडारे के साथ किया समापन

अमन लेखनी समाचार

सुमेरपुर, उन्नाव। बारासगवर क्षेत्र अंतर्गत दलपतखेड़ा में माँ शीतला शक्ति पीठ में मूर्ति स्थापना उपरान्त संगीतमय रामायण भंडारे के साथ समाप्त हुआ। कार्यक्रम आयोजक राम ठाकुर ने बताया शीतला शक्ति पीठ मंदिर में राम दरबार, शिवलिंग, नंदी, खाटू श्याम, शीतला माता सहित 12 देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। प्राण प्रतिष्ठा पूरे धूमधाम के साथ वैदिक आचार्यों के द्वारा मंत्रोच्चारो से की गई

। प्राण प्रतिष्ठा उपरांत सैकड़ो महिलाओं ने माँ से आशीर्वाद स्वरूप सुहाग लिया जबकि पुरुषों ने अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना की।

पूजन के उपरांत बहुत सुंदर तरीके से संगीतमय रामायण पढ़ी गयी । रामायण की समाप्ति पर हवन पूजन के बाद भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें भक्तों ने प्रसाद स्वरूप पूड़ी-सब्जी व बूंदी का प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम के दौरान मंदिर सहयोगी के रूप में जिला पंचायत सदस्य राम बिलास, पंकज सिंह, राम, शिवम सिंह, दिनेश, राकेश, श्यामू, विकास, प्रेम सहित सैकड़ों भक्त सेवा में लगे रहे।

राष्ट्रीय बालिका दिवस पर वृहद कार्यक्रम का हुआ आयोजन

अमन लेखनी समाचार

उन्नाव। भारत सरकार के निर्देशनुपालन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत आज दिनांक 24 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष में निराला प्रेक्षा गृह में वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें पंकज गुप्ता विधायक सदर उन्नाव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे कार्यक्रम में जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी एवं विधायक द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना अंतर्गत लाभान्वित बच्चियों को प्रशस्ति पत्र एवं मिष्ठान का वितरण किया गया इसके अतिरिक्त निराला प्रेक्षा गृह परिसर में स्टाल लगाकर महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के पंपलेट एवं स्टीकर आदि वितरित कर आम जनमानस में योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। उपरोक्त कार्यक्रम में पंकज गुप्ता विधायक, अपूर्व दुबे जिलाधिकारी ऋषि राज मुख्य विकास अधिकारी संजय पांडे जिला विकास अधिकारी महेंद्र चौबे डीसी मनरेगा, नीलम सिंह जिला समाज कल्याण अधिकारी क्षमानाथ राय जिला प्रोबेशन अधिकारी संगीता सिंह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश मिश्रा जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन/ जिला बाल संरक्षण इकाई के अन्य अधिकारी व कर्मचारी तथा जनपद स्तरीय अन्य अधिकारी गण उपस्थित रहे।

ब्लाक परिसर में मतदाता शपथ कार्यक्रम हुआ संपन्न

अमन लेखनी समाचार

फतेहपुर चौरासी, उन्नाव। सरकार द्वारा चलाये जा रहे मतदाता पंजीकरण अभियान के तहत राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर क्षेत्र के ब्लाक परिसर में मतदाता शपथ कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर ब्लाक परिसर में ब्लाक प्रमुख मनोज कुमार ने उपस्थित कर्मचारियों, प्रधानों, व लोगों को मतदान करने व छूटे लोगों को मतदाता बनाने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर बीडीओ अनिल कुमार सिंह, ए डी ओ पंचायत हेमन्त कुमार, ग्राम विकास अधिकारी विवेक कुमार, विमल कुमार, अभय कुमार महेन्द्र कुमार अमित पटेल शैलेन्द्र त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।

ग्राम चौपाल लगाकर एसडीएम व क्षेत्राधिकारी ने सुनी समस्याएं

अमन लेखनी समाचार

मौदहा। तहसील के सिसोलर थाना क्षेत्र के किसवाही गांव में आज पुलिस क्षेत्राधिकारी एवं एसडीएम ने गांव में चौपाल आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण के निर्देश दिए। ग्रामीणों द्वारा गांव में पुल व सड़क बनवाने की आवश्यकता पर एसडीएम राजेश कुमार मिश्रा व सीओ श्रेयस त्रिपाठी ने समस्या के जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया है। मतदान बहिष्कार की बात सुनकर उन्होंने कहा कि मतदान न करना किसी भी चीज का हल नहीं होता। इसलिए आप लोगो को मतदान अवश्य करना चाहिए। आपकी सभी समस्याओं को हल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इस दौरान थानाध्यक्ष संजय सिंह, ग्राम प्रधान अशोक सिंह, पंचायत सहायक देवेंद्र पांडेय, शिवबहादुर सहित अनेक ग्रामवासी मौजूद रहे।

चोरी गए पार्ट्स व तमंचा सहित अभियुक्त गिरफ्तार

अमन लेखनी समाचार/शिवम सिंह

कुरारा, हमीरपुर। एक गांव में हुई ट्रैक्टर के पार्ट्स की चोरी का खुलाशा करते हुए पुलिस ने ट्रैक्टर से चोरी गए पार्ट्स सहित एक तमंचा सहित अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। मंगलवार को पतारा गांव में ब्रह्म श्रीवास के घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर से ट्रैक्टर की बैटरी व अन्य पार्ट्स चोरी हो गए थे। जिसपर पुलिस ने उसी के पड़ोसी रामकेश पुत्र तिल्ली को शंका के बाद गिरफ्तार किया था पूछताछ में रामकेश ने चोरी कबूल की तब उसकी निशानदेही पर पुलिस ने रामकेश के ही घर से चोरी का पूरा समान जिसमे ट्रैक्टर की बैटरी, जैक, पटिया, हिच, नटबोल्ट आदि व एक 315 बोर तमंचा 2 जिंदा कारतूस सहित बरामद किया है। पुलिस ने चोरी व अवैध असलहा रखने की धाराओं में रामकेश का चलन किया है। इस संबंध में थानाध्यक्ष योगेश तिवारी ने बताया कि शंका के आधार पर उससे पूछताछ की गई थी जिसपर रामकेश ने अपना अपराध स्वीकार किया है। रामकेश अपराधी प्रवत्ति का व्यक्ति है।

तमंचा व दो जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार

अमन लेखनी समाचार/शिवम सिंह

कुरारा, हमीरपुर।पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण को चलाये जा रहे अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति को एक तमंचा व दो कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा है। थाना क्षेत्र के जलाला भटपुरा गांव निवासी अजय निषाद जोकि ग्राम प्रधान पति भी है को मुखबिर की सूचना पर देशी शराब के ठेके के पास से एक 315 बोर देशी तमंचा व दो जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा है।

जनपद के एक हजार चौबीस गांवों में पहुंच चुकी विकसित भारत संकल्प यात्रा

अमन लेखनी समाचार

उन्नाव। उत्तर प्रदेश के जन-जन को जागरुक करने के उद्देष्य से उत्तर प्रदेश सरकार से सचल वाहनों एवं विभागों के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन कर रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि ग्राम पंचायत में निवासित जन समूह एवं कृषकों को जनपद में संचालित योजनाओं प्रति जागरुक कर लाभ जन -जन तक पहुंचाना। अब तक जनपद उन्नाव के एक हजार चौबिस ग्राम पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन कर जन समूह एवं कृषकों को लाभान्वित किया जा चुका है। इस यात्रा में सरकारी महकमें के साथ प्रत्येक ग्रांम पंचायत जनपद के जनप्रतिनिधियों की सहभागिता रही।

विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन जनपद में नवाबगंज के ग्राम पंचायत सरौती, सराय जोगा एवं सेवरा, विछिया के झंझरी एवं गौरी शंकर पुर ग्रांट , असोहा के धैराहरा बांगरमऊ के मुर्तजापुर एवं ततियापुर, बीघापुर के सथनी बाला खेड़ा, भटखेरवा कला, ओसिया एवं खेसुआ तथा एफ-चौरासी विकास खण्डों के ग्राम पंचायतों शाहपुर खुर्द एवं समसपुर अटिया कबूलपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। आयोजित सभी विकास खण्डों में लगभग 21000 स्थानीय निवासियो ने प्रतिभाग कर वर्ष 2047 भारत देश को विकसित करने का संकल्प लिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा दौरान ग्राम पंचायत में निवासित ग्रामवासियों तक जनपद में संचालित योजनाओं का लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से राज्व विभाग, सहकारिता, कृषि विभाग, स्वास्थ विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति, ग्राम्य विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा, जिला अग्रणी बैंक, पशुपालन विभाग, नेहरू युवा केन्द्र एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा स्टाल लगाकर लाभान्वित किया गया।

कृषि विभाग के तत्वावधान में संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के किसानों की ई-केवाईसी, एनपीसीआई, भू-अंकन एवं किसानों का ओपेन सोर्स के किसानों की समस्याओं का समाधन किया गया तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत के 5 किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भेजे जाने का प्रमाण दिया गया। विकास खण्ड बांगरमऊ के ग्राम पंचायत मुर्तजापुर एवं ततियापुर में विधायक श्रीकांत कटिआर, ने प्रतिभाग कर उपस्थित जन-समुह एवं किसानों की समस्याओं से अवगत हुए तथा जिन समस्याओं का निदान तत्काल सम्भव था उसका निदान करवाये अन्य समस्याओं का अतिशीघ्र निदान कराने का आश्वासन दिये।

पानी के निकास को लेकर दबंगो ने महिला व बच्चो को मारा-पीटा

अमन लेखनी समाचार

बीघापुर, उन्नाव। घर के पानी के निकास को लेकर पड़ोसी ने जमकर महिला व उसके बच्चों को जमकर मारा पीटा घर का सामान फेंक दिया महिला ने पुलिस को तहरीर दी पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी थाना बीघापुर के अंतर्गत ग्राम लोनियन खेड़ा मजरा मानपुर निवासी श्याम दुलारी पत्नी फूलचंद के घर के पानी के निकास को लेकर पड़ोसी राकेश सिंह पुत्र बदलू सिंह मेहुल सिंह पुत्र सुरेश सिंह ज्ञान सिंह पुत्र नरेश सिंह निर्भय सिंह पुत्र शमशेर सिंह ने महिला व उसकी पुत्री रुचि देवी कंचन देवी व दो छोटे-छोटे बच्चों को लात घुसो लाठी डंडों से मारा पीटा पीड़िता के सिर में गंभीर चोटे आ आई पीड़िता ने तहरीर में लिखा कि मेरे घर की सारी गृहस्थी दबंगों ने फेंक दी थाने में दिए गए तहरीर के आधार पर पुलिस ने मारपीट सहित संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी।

प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रमों का हुआ आयोजन

अमन लेखनी समाचार/उमेश दीक्षित

हमीरपुर। जनपद हमीरपुर में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस को हर्षोउल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम चौरादेवी प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसका विधायक सदर डा0 मनोज प्रजापति, जिलाधिकारी राहुल पाण्डेय ने फीता काटकर शुभारंभ किया। जिसके मुख्य अतिथि मंत्री जलशक्ति सिंचाई एवं जलसंशाधन बाढ़ नियंत्रण परती भूमि विकास लद्यु सिंचाई नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उ0प्र0 स्वतंत्र देव सिंह एवं अतिथिगण सत्यजीत मिश्रा ,संयुक्त सचिव, पार्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार नोडल अधिकारी विकसित भारत संकल्प यात्रा, राज्य सभा सदस्य बाबूराम निषाद, विधायिका राठ मनीषा अनुरागी, अध्यक्ष जिला पंचायत जयन्ती राजपूत, अध्यक्ष नगर पलिका परिषद हमीरपुर कुलदीप निषाद, अध्यक्ष भाजपा सुनील पाठक, सांसद प्रतिनिधि अशोक तिवारी व अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी संबंधित अधिकारियों द्वारा दी गयी, तथा मुख्य अतिथि द्वारा सरकार द्वारा अच्छादित योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों प्रधानमंत्री आवास शहरी से ,क्षमा प्रजापति, बुधिया, कुसुमकली, नीलम, अनीता, रजनी, दिलीप, जितेन्द्र, कालका व शिवकुमार स्वनिधि योजना तथा अन्य सरकारी योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों को सम्मानित किया, तथा जाति, धर्म, वर्ग सम्प्रदाय से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को साथ देने की अपील की, तथा प्रांगण में विभिन्न विभागों द्वारा लगाये गये स्टालों का अवलोकन किया। विभिन्न विभागों ने अपने.अपने स्टाल लगाये, जहां पर सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के संचालन और उनके क्रियान्वयन को प्रर्दशित किया गया। कृषि विभाग, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, सूचना विभाग, उद्यान विभाग, उद्योग विभाग, जिला प्रोबेशन, समाज कल्याण इत्यादि की प्रर्दशनियां उल्लेखनीय रहीं इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी चन्द्र शेखर शुक्ला, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, अपर जिलाधिकारी न्यायिक नागेन्द्र नाथ यादव, डिप्टी कलेक्टर खालिद अंजुम, जिला विकास अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला पंचायज राज अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, उप कृषि निदेशक ,जिला कृषि अधिकारी, जिला परियोजना अधिकारी, डीसी मनरेगा, डीसी एनआरएलएम, जिला समाज कल्याण अधिकारी समाजसेवी गणमान्य नागरिक सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

चिंतन

वैश्विक भरोसे से लगेंगे अर्थव्यवस्था को पंख

विश्व के आर्थिक दिग्गजों के स्विटज़रलैंड के दावोस में चल रहे पांच दिवसीय महाकुंभ का समापन वैश्विक नेताओं से विश्वास की बहाली पर जोर देने की अपील के साथ हो गया। विश्व की वर्तमान में आर्थिक स्थिति है, उसमें विश्वास बहाली की बहुत अधिक आवश्यकता है, लेकिन केवल अपील भर से बात नहीं बनेगी। वैश्विक आर्थिक सुस्ती जंग, संघर्ष और ट्रेड वार जैसे हालात में दूर नहीं हो सकेगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था को गति तभी मिलेगी, जब वैश्विक निवेश बढ़ेंगे। दो दो जंग जारी हैं, कई स्तर पर क्षेत्रीय संघर्ष चल रहे हैं, कई छोटे मुल्क चीनी दहशत में हैं, अमेरिका, चीन व रूस के आपसी तनाव कम नहीं हो रहे हैं, ईरान ने सीरिया, इराक व पाक में नया मोर्चा खोल दिया है, तो आतंकी गुट हुती विद्रोही अरब सागर व अदन की खाड़ी में नया खतरा बन कर उभरा है, उत्तर कोरिया की हरकतों से दक्षिण कोरिया व जापान सकते में है, चीन के रडार पर ताइवान व फिलिपींस हैं, अनेक छोटे देशों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती जा रही है, ऐसी विकट परिस्थिति में नए निवेश की राह बाधित हो रही है। ग्लोबल स्तर पर अमेरिका, यूरोप, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब जैसे देश बड़े निवेशक हैं, लेकिन युद्ध, संघर्ष के चलते नए निवेश ये मुल्क कर नहीं पा रहे हैं। अमेरिका का पूरा ध्यान यूक्रेन व इजराइल की मदद पर है और ईरान को घेरने पर है। संभवतः अमेरिका हथियारों की आपूर्ति कर व रक्षा सामग्री के निर्यात से अपनी सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को गति देने की कोशिश कर रहा हो, अगर ऐसा है तो यह यूएस का बहुत ही छोटा तरीका है। अमेरिका वैश्विक अर्थव्यवस्था को गति दे सकता है। ट्रंप काल से पहले तक अमेरिका वैश्विक अर्थव्यवस्था का इंजन बना हुआ था, लेकिन ट्रंप के संरक्षणवाद के वलते अमेरिका खुद भी सिकुड़ा व उसकी इंजन की भूमिका भी जाती रही है। चीन चाहकर भी अमेरिका का स्थान नहीं ले सकता है, इसका कारण यह कि चीन की अपनी अर्थव्यवस्था भी सुस्ती का सामना कर रही है, दूसरी वह जिसकी भी मदद करता है, उसको बड़ा कर्जदार बना लेता है, इससे वैश्विक तरक्की को गति नहीं मिलती है। तीसरी अहम बात कि, वह न ही भरोसेमंद है, न दूसरे मुल्क के प्रति उदार है और न ही वह विस्तारवाद की भावना से मुक्त है। सीमा विवाद व अन्य विवाद उत्पन्न कर दूसरे के क्षेत्र को हड़पने की सोच व नीति के चलते चीन महत्वाकांक्षा के बावजूद विश्व को नेतृत्व नहीं दे पा रहा है, केवल अमेरिका विरोधी लॉबी तक सीमित होकर रह गया है। ऐसे में विश्व आर्थिक मंच जिस वैश्विक भरोसे की अपील कर रहा है, उसके कायम होने की सूरत दिख नहीं रही है। विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक के आखिरी दिन शुक्रवार को वैश्विक नेताओं से विश्वास बहाली के अलावा ग्लोबल अर्थव्यवस्था में नई जान डालने और भ्रामक सूचना, समाज में ध्रुवीकरण, जलवायु परिवर्तन एवं संघर्षों के जोखिमों से निपटने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया गया है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते तापमान, नाजुक अर्थव्यवस्था और सीमाओं से परे की सुरक्षा चुनौतियों से पता चलता है कि किसी मुल्क का अकेले आगे बढ़ पाना संभव नहीं है। इन चुनौतियों की वजह से विश्वास की बहाली बेहद अहम हो जाती है, जिसकी उम्मीद निकट भविष्य में नहीं दिख रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था तंग वित्तीय स्थितियों, भू-राजनीतिक तनाव और जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में तेजी से प्रगति के संभावित खतरे से जूझ रही है। आज जरूरत समावेशी, सहअस्तित्ववाद और सहयोगात्मक आर्थिक दृष्टिकोण की है, भारत इन्हीं मूल्यों को केंद्र में रखकर आर्थिक तरक्की कर रहा है। युद्ध, उथलपुथल व अनिश्चितता से निकलने का मार्ग भी यही है, विश्व इस राह पर चले, तभी डब्ल्यूईएफ जैसी बैठक की सार्थकता है।

एक आहत सभ्यता की सजल आँखें!

सबके राम, सबमें राम की भावना को स्थापित करने से बनेगा एक भारत-श्रेष्ठ भारत

- प्रो. संजय द्विवेदी

हिन्दी दैनिक अमन लेखनी लखनऊ

अयोध्या में 22 जनवरी,2024 को रामलला विराजे और तमाम आँखें सजल हो उठीं। ये आँसू यूं ही नहीं आए थे। ये भारत की लगातार आहत होती सभ्यता को एक सुनहरे पल में प्रवेश करते देखकर भर आई आँखें थीं। अयोध्या को इस तरह देखना विरल है। यह शहर सालों से सन्नाटे में था, गहरी उदासी और गहरे अवसाद में डूबा, शांत और उत्साहहीन। जैसे इतिहास और समय एक जगह ठहर गया हो और उसने आगे न बढ़ने की ठान रखी हो। दूरस्थ स्थानों से अयोध्या आते लोग भी हनुमान गढ़ी और कनक भवन जैसे स्थानों को देखकर लौट जाते। चौदहकोसी परिक्रमा करते और चले जाते। राम के लिए आए लाखों लोगों में बहुत कम लोग त्रिपाल या टाट में बैठे रामलला के दर्शन करते। लेकिन 22 जनवरी का नजारा अलग था। हर राह राममंदिर की ओर जा रही थी। आँखों में आँसू, चेहरे पर मुस्कान और पैरों में तूफान था। आखिर हमारे राम को उनके अपने घर और शहर में सम्मान मिलते देखना अद्भुत अनुभव था। सदियां गुजर गईं लेकिन सत्य स्थिर था। इसी सत्य को देखने सारी दुनिया टीवी, मोबाइल स्क्रीन पर आँखें गड़ाए बैठी थी। विवाद का अंत हुआ और सत्यमेव जयते का उद्घोष सार्थक हुआ। यह समाधान सर्वजनहिताय तो था ही।

अयोध्या के दर्द को समझिए

कभी त्रेता में वनवास गए राम कलयुग में भी एक दूसरी दुविधा के सामने थे। आजाद हिंदुस्तान में भी भारत के इस सबसे लायक बेटे के लिए मंदिर की प्रतीक्षा थी। बाबर के सेनापति द्वारा गिराए मंदिर के सामने पूजा-अर्चना करके आहत समाज यह सोचते हुए लौटता था कि कभी राम का भव्य मंदिर बनेगा। 2024 की यह 22 जनवरी करोड़ों आँखों के सपने सच करने के लिए आई थी। राम भारत के राष्ट्रनायक हैं, जिन्होंने अयोध्या से रामेश्वरम्-को जोड़ा। वे दीन-दुखियों के, जीवन जीने के लिए संघर्ष करती आम जनता के पहले और अंतिम सहायक हैं। रामचरित मानस और हनुमान चालीसा की पंक्तियों को दोहराते हुए यह संघर्षरत समाज राम के सहारे ही अपनी जीवनयात्रा को सरल बनाता रहा है। बावजूद इसके आजादी के बाद भी सबको मुक्त करने वाले नायक को मुक्ति नहीं मिली। लंबे समय तक तो वो ताले में बंद रहे। अखंड कीर्तन चलता रहा। किंतु राहें आसान नहीं थीं। अयोध्या आंदोलन की यादें आपको सिहरा देंगीं। 1990 और 1992 की यादें एक गहरी कड़वाहट घोल जाती हैं। राजनीति किस तरह आसान मुद्दों को भी जटिल बनाती है। इसकी कहानी अयोध्या आज भी बताती है। अयोध्या अब अपने सदियों के दर्द से मुक्त मुस्करा रही है।

धैर्य, सहनशीलता और धर्म की जंग थी यह

दुनिया के किसी पंथ,संप्रदाय के महानायक के साथ यह होता तो क्या होता? सोचकर भी सिहरन होती है। किंतु भारत में यह हुआ और हिंदू समाज के अपार धैर्य, सहनशीलता की कथा फिर से दोहराई गयी। एक साधारण मंदिर नहीं अपने राष्ट्रपुरूष, राष्ट्रनायक की जन्मभूमि के लिए भी लंबा अहिंसक संघर्ष सड़क से लेकर अदालतों तक चलता रहा। सही मायने में 22 जनवरी का दिन हमारे राष्ट्रजीवन में 15 अगस्त,1947 से कम महत्त्पूर्ण नहीं है। क्योंकि 15 अगस्त के दिन हमें अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली थी तो 22 जनवरी को हम सांस्कृतिक, वैचारिक दासता और दीनता से मुक्त हो रहे हैं। यह भारत की चिति को प्रसन्न करने का क्षण है। यह आत्मदैन्य से मुक्ति का क्षण है। यह क्षण अप्रतिम है। वर्णनातीत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर स्व. राजीव गांधी (अपनी अयोध्या यात्रा में) तक रामराज्य लाने की बात करते हैं। किंतु उस यात्रा की ओर पहला कदम आजादी के अमृतकाल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया है। इसलिए सारा देश उनके साथ खड़ा है। कांग्रेस नेता श्री प्रमोद कृष्णन ने सत्य ही कहा है कि यदि श्री मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो मंदिर निर्माण संभव नहीं होता।

नए भारत के स्वप्नदृष्टा हैं मोदी

रामलला का 496 वर्षों बाद अपनी जन्मभूमि पर पुनःस्थापित होना सबको भावविल कर गया। दुनिया भर में बसे 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं और भारतवंशियों के लिए यह गौरव का क्षण था। इस मौके पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख डा. मोहन भागवत जी ने किसी तरह का राजनीतिक संवाद न करते हुए जो बातें कहीं वो भविष्य के भारत की आधारशिला बनेंगीं। संघ प्रमुख ने रामराज्य की अवधारणा को व्याख्यायित करते हुए भविष्य के कर्तव्य पथ की चर्चा की। उनका कहना था- आज अयोध्या में रामलला के साथ भारत का स्व लौट आया है। संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होकर रहेगा। उसका प्रतीक यह कार्यक्रम बन गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर साफ कहा कि- राम आग नहीं ऊर्जा हैं।राम विवाद नहीं समाधान हैं। राम विजय नहीं विनय हैं। राम सिर्फ हमारे नहीं, सबके हैं। यह बात बताती है कि माननीय प्रधानमंत्री एक नए भारत के स्वप्नदृष्टा हैं। नया भारत बनाने और उसमें एक जीवंत ऊर्जा का संचार करने के लिए प्रधानमंत्री ने न सिर्फ रामलला की मूर्ति स्थापना के लिए 11 दिनों का व्रत विधानपूर्वक बिना ठोस भोजन लिए पूर्ण किया, बल्कि उनकी विराट सोच ने इस आयोजन को और भी अधिक भव्य और सरोकारी बना दिया। देश के विविध क्षेत्रों की माननीय प्रतिभाओं को एक स्थान पर एकत्र कर राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने इस आयोजन को विशेष गरिमा प्रदान की। राजनीति से परे हटकर इस घटना का विश्लेषण करना ही इसे सही अर्थ में समझना होगा। तभी हम भारत और उसकी महान जनता के मन में रमे राम को समझ पाएंगें। ह्यसबके राम-सबमें रामह्णकी भावना स्थापित कर हम राममंदिर को राष्ट्रमंदिर में बदल सकते हैं। जिससे मिलने वाली ऊर्जा दिलों को जोड़ने, मनों को जोड़ने का काम करेगी। यह अवसर भारत का भारत से परिचय कराने का भी है। जनमानस में आई आध्यात्मिक और नैतिक चेतना को देखकर लगता है कि भारत की एक नई यात्रा प्रारंभ हुई है, जो चलती रहेगी बिना रूके, बिना थके।

डॉ. शिवओम अंबर ने लिखा है

राम हमारा कर्म, हमारा धर्म, हमारी गति है।
राम हमारी शक्ति, हमारी भक्ति, हमारी मति है।
बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहां है?
बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष कहां है?

(लेखक भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व महानिदेशक हैं।)

असंयम लक्ष्य विमुख कर देता हैं



संकलित

दर्शन

भगवान श्रीराम हर पल आत्मस्थिति में रहे। वे तनिक भी असंयमित नहीं हुए। असंयम लक्ष्य विमुख कर देता है। जब हम किसी से प्रतिस्पर्धा का भाव रखते हैं, तब उस व्यक्ति के गुण और उसके कार्यों को हम किसी और ढंग से देखते हैं। उसी व्यक्ति से जब हमारा राग होता है, तो हम उसके हर कार्य में श्रेष्ठता ही देखते हैं। द्वेष होने पर हम न्यूनता और दोषों को ही खोजते हैं। आसक्ति होने पर उसके प्रति हम अपना सर्वस्व न्योछावर करने में भी तनिक संकोच नहीं करते हैं। हमारी यह इंद्रधनुषीय दृष्टि और वृत्ति जब किसी पद और अधिकार प्राप्त व्यक्ति के साथ जुड़ जाती हैं, तब वह व्यक्ति विकार को और भी विकृत कर उसे व्यापक बना देता है, तब उस मनःस्थिति में निर्णय देने, सामाजिक व्यवहार करने में वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता हुआ स्वयं और समाज को गर्त में डाल देता है। श्रीरामचरितमानस में गुरु वशिष्ठ ने श्रीभरत के अंदर तब इस त्रिपुटी की प्रधानता स्वीकारी, जब श्रीभरत भगवान की पादुकाओं को अपने सिर पर लेकर आए और गुरुदेव वशिष्ठ से पूछा कि यदि आपका मंगलाशासन हो तो मैं पादुका रूप प्रभु को नंदीग्राम जाकर सिंहासनासीन कर वहीं से राज्य का कार्य संभाल लूंगा? तब गुरुदेव ने मानो भरत से यही कहा कि समुझव (समझ) के रूप में तुम्हारे अंदर विधायिका के गुण हैं, कहब (कथन) के रूप में न्यायपालिका के गुण हैं और करब (करनी) के रूप में कार्यपालिका के गुण हैं।

संतान गुस्सा हो तो उसे शांत करने की कोशिश जरूर करें

संकलित

प्रेरणा

पुराने समय में एक दिन शिव जी और पार्वती जी ने विचार किया कि अब गणेश और कार्तिकेय का विवाह कर देना चाहिए। ये विचार करने के बाद उन्होंने कार्तिकेय स्वामी और गणेश जी को बुलाया और दोनों से कहा कि आप दोनों में से जो इस संसार की परिक्रमा करके पहले आएगा, हम उसका विवाह पहले कराएंगे। कार्तिकेय स्वामी तो अपने वाहन मोर पर बैठकर तुरंत उड़ गए, लेकिन गणेश जी अपने वाहन चूहे पर बैठे हुए थे। गणेश जी ने ने तुरंत ही माता-पिता की परिक्रमा कर ली और कह दिया कि आप दोनों ही मेरे लिए संसार हैं। दूसरी ओर, कार्तिकेय स्वामी को संसार की परिक्रमा करके लौटने में थोड़ा समय लग गया। जब कार्तिकेय स्वामी परिक्रमा करके लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश का विवाह हो गया है। गणेश जी को विवाहित देखकर कार्तिकेय स्वामी नाराज हो गए। उन्होंने शिव-पार्वती से कहा कि आपने ये सही नहीं किया है। क्रोधित होकर कार्तिकेय स्वामी क्रौंच पर्वत पर चले गए। ये क्रौंच पर्वत आज दक्षिण भारत में कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। इसे श्रीपर्वत भी कहते हैं। शिव जी और देवी पार्वती ने कार्तिकेय स्वामी को समझाने की बहुत कोशिशें कीं, लेकिन कार्तिकेय शांत नहीं हुए। शिव-पार्वती समझ गए कि कार्तिकेय बहुत ज्यादा गुस्से में है और ये वापस भी नहीं आएगा। तब दोनों ने तय कि वे ही कार्तिकेय से मिलने जाते रहेंगे।

सारा संसार

उप्पिलिप्पन मंदिर तमिलनाडु के थिरुनागेश्वरम में स्थित बहुत ही अद्भुत मंदिर है। उप्पिलिप्पन मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है जोकि तमिलनाडु के सबसे अधिक देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है।

विशेष

प्रवीण दत्त शर्मा

मरते दम तक महात्मा गांधी के मुख पर रहे 'राम'

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन में रामनाम का बड़ा महत्व रहा। गांधीजी का बचपन धार्मिक प्रवृत्ति की अपनी माता पुतली बाई और नौकरानी रंभादाई के सानिध्य में बीता, जिसके कारण उन्हें रामनाम से विशेष लगाव रहा, यही कारण है कि बचपन में रामनाम से लेकर अंतिम समय में 'हे राम' कहने तक राम उनके जीवन के अभिन्न अंग रहे। महात्मा गांधी 1921 में अयोध्या आए। उन्होंने सरयू में स्नान किया। इसके पश्चात वे रामलला का दर्शन करने गए। इस बात का जिक्र गांधी वांग्मय में किया गया है। राम मंदिर में दर्शन करते वक्त उन्होंने कल्पना की कि कितना अच्छा होता, यदि राम ने खादी की पोशाक पहनी होती। उन्होंने मंदिर के पुजारी से आग्रह किया कि वे राम के विग्रह को खादी की पोशाक पहनाएं। गांधीजी कहते हैं, 'यदि मुझमें तुलसीदास जी की तरह गाढ़ प्रतिज्ञा होती, तो मैं भी उस समय तुलसीदास जी की तरह हठ पकड़ लेता। कृष्णमंदिर में तुलसीदास जी ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक धनुष बाण लेकर राम रूप में कृष्ण प्रकट नहीं होंगे, तब तक तुलसी-मस्तक नहीं झुकेगा। श्रद्धालु लेखकों का कहना है कि जब गोस्वामी जी ने ऐसी प्रतिज्ञा की, तब तक चारों ओर उनकी आंखों के सामने रामचंद्र की मूर्ति प्रकट हो गई और तुलसीदास जी नतमस्तक हो गए। अनेक बार मेरा ऐसा हठ करने का मन हो आता है कि हमारे ठाकुर जी को जब पुजारी खादी पहनाकर स्वदेशी बना देंगे, तब हम अपना माथा झुकाएंगे। लेकिन पहले मुझे इतना तप करना होगा, तुलसीदासजी की अपूर्व भक्ति को प्राप्त करना होगा।' भारत में महात्मा गांधी एक ऐसे नेता रहे, जो सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की बात कहते रहे, लेकिन इन सबके बावजूद अपने अनुयायियों को समय-समय पर राम नाम जपने की सलाह देते रहे, क्योंकि वह मानते थे कि राम का नाम सर्वशक्तिमान है। उनकी मृत्यु तक उनकी विशेष सहयोगी रही मनु ने भी अपने संस्मरणों में बापू के राम प्रेम के बारे में लिखा है। वे बताती हैं कि नौआखाली दौरे के दौरान अत्यधिक काम की वजह से गांधीजी बीमार हो गए। अतः उन्होंने सुशीला नैयर, जो उनके स्वास्थ्य की देख-रेख करती थीं, को बुलाने के लिए चिट्ठी लिखी, लेकिन गांधीजी ने डॉक्टर बुलाने के लिए मना करते हुए कहा कि अगर रामनाम का मंत्र मेरे दिल में पूरा-पूरा रम जाएगा, तो मैं कभी बीमार होकर नहीं मरूंगा। महात्मा गांधी ने एक ऐसे राज्य का स्वप्न देखा जो भगवान राम के बनाए राज्य से मिलता-जुलता हो। 1947 में विभाजन के बाद फैले सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए गांधीजी दिल्ली पहुंचे।

अंतर्मन

आज की पाती

महानायक हैं श्री राम

विश्व महानायक राम का नाम युगों-युगों से जन के मन पर छाया हुआ है। राम का नाम चिरंजीवी रहेगा तथा अपनी गरिमा के समस्त वैभवों से विश्व मानस को संत अर्पण प्रदान करता रहेगा। सचमुच राम का नाम कल्पवृक्ष है। वाल्मीकि ने राम पर काव्य रचना की और आदिकवि की संज्ञा प्राप्त कर अमर हो गए। आचार्य रविषेण, आचार्य गुणभद्र, आचार्य विमलसूरि ने एक से एक उत्तम भाव प्रवण पुराण एवं काव्य साहित्य में रामचरित लिखे हैं। संस्कृत के स्वतंत्र महाकवियों तथा मैथिलीशरण गुप्त ने राम पर काव्य रचना की है।

-विवेक जोशी

ट्रेंड

कारगर हो सरकारी योजनाएं

मुंबई के किन्नर समाज की कल्पना जी से बातचीत कर इस बात का संतोष हुआ कि हमारी सरकार की योजनाएं कैसे आज देश में हर वर्ग का आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ ही उसे स्वाभिमान से जीने का हक भी दे रही हैं।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

रिपब्लिकन प्रयासों के साथ

मेहनती परिवारों के लिए लागत कम करने के लिए जंक फीस से निपटना व्यापक योजना का हिस्सा है। हम अमीरों और बड़े निगमों को अधिक उपहार प्रदान करने के अत्यधिक रिपब्लिकन प्रयासों के साथ खड़े रहते हुए सब कुछ करना जारी रखेंगे।

-जो बाइडेन, अमेरिकी राष्ट्रपति

प्रसन्न रहने का सूत्र

जीवन में प्रसन्न रहने का सूत्र यही है कि हम संबंधों में किसी से अधिक अपेक्षाएं न रखें। अपेक्षायें दुःख का कारण हैं। कई बार हम संबंधियों पर से बहुत अधिक निर्भर रहते हैं। इस प्रकार की अपेक्षाएं और आशाएँ कष्ट का कारण बनती है।

-अवधेशानंद, आध्यात्मिक गुरु

अयोध्या जाने का आग्रह

जैसे-जैसे हम अयोध्या में राम मंदिर की प्रतिष्ठा के दिन के करीब आ रहे हैं, मैं नागरिकों से वहां जाने का आग्रह करती हूं। बेंगलुरू और कंचन रामचरितमानस की अद्भुत प्रदर्शनी देखें-वास्तव में एक दुर्लभ संग्रह।

-किरण मजूमदार शॉ, उद्योगपति

करंट अफेयर

एआई निर्बाध अभिव्यक्ति के लिए खतरा कैसे है

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के खतरों के बारे में अक्सर सुर्खियां जानलेवा रोबोट को लेकर या फिर इस डर को लेकर होती हैं कि ये रोबोट मानव की नौकरियां ही खत्म कर देंगे, लेकिन एक और गंभीर ख़तरा है, जिस पर आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम ध्यान जाता है। यह समस्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इन नई तकनीकों के पड़ने वाले प्रभाव को लेकर है। यह भी ध्यान देना होगा कि नई तकनीकें खास तौर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले कुछ सबसे बुनियादी कानूनी सिद्धांतों को कैसे कमजोर कर सकती हैं। जब भी कोई नयी संचार तकनीक आती है



ऑफ बीट

उत्तर कोरिया ने परमाणु हमला करने वाले ड्रोन का किया परीक्षण

उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को कहा कि उसने इस सप्ताह दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के संयुक्त नौसैन्य अभ्यास के जवाब में पानी में परमाणु हमले करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया ने अपने दुश्मन देशों पर क्षेत्र में तनाव बढ़ाने का आरोप भी लगाया है। यह कथित ड्रोन परीक्षण ऐसे वक्त में किया गया है जब कुछ ही दिन पहले देश के नेता किम जोंग उन ने कहा था कि उनका देश अब दक्षिण कोरिया के साथ सुलह का प्रयास नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने युद्ध में विभाजित देशों के बीच साझा राष्ट्र के विचार को खत्म करने के लिए उत्तर कोरिया के संविधान को फिर से लिखने का आह्वान किया।

संक्षेप

रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का लोगों ने देखा लाइव प्रसारण

जश्न में लोगों ने फोड़े पटाखे, विधायक बोले- 30 जनवरी को भगवान राम का करेंगे दर्शन

प्रतापगढ़, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ आज पूरा देश राम मय हो गया। प्रतापगढ़ में शहर से लेकर गांव तक भगवान राम के नारे लगा रहे थे। राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जगह-जगह चौराहा पर लोगों पटाखे छोड़े और आतिशबाजी की। चौराहे पर जगह-जगह एलईडी के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण दिखाया गया। बाबागंज में बुलडोजर पर जय श्रीराम का झंडा लगा नारा लगाया गया। साथ ही रैली निकली गई। पूरे शहर में जगह-जगह सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस फोर्स तैनात रही। सदर विधायक राजेंद्र मौर्य ने कहा कि श्री राम अपने नए जगह विराजमान हो चुके है। हम जनता को बधाई दे रहे हैं। जगह-जगह भंडारा हो रहा है हम सभी जगह पहुंच कर प्रसाद ग्रहण करेंगे। हमें दर्शन के लिए 30 तारीख मिली है। तय तिथि को हम सभी दर्शन करने के लिए रवाना होंगे अयोध्या में आज रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव हर और मनाया जा रहा है। शहर से लेकर गांव तक राम मय हो गया है। राम लहर में लोग अभिवादन श्री प्रभु के नाम से ही कर रहे हैं। अब नमस्ते, प्रणाम, हेलो हाय, गुड नाइट और मॉर्निंग की जगह लोग खुशी पूर्वक जय श्री राम कहने लगे हैं। हर जगह लोग रामलला की छवि और अनुभूति को प्रतिबिंबित करने का कोई अवसर छोड़ना नहीं चाह रहे हैं।

नीम के पेड़ पर लटकता मिला युवक का शव

परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप, पुलिस जांच में जुटी

प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के सांगीपुर थाना क्षेत्र के गारापुर भटपुरवा गांव में शौच के लिए निकले ग्रामीणों ने दीपक 25 नीम के पेड़ पर शव लटकता देखा। तो हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने परिजनों समेत पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद पहुंचे परिजनों मे कोहराम मच गया। वहीं पर जनों ने हत्या का आरोप भी लगाया।सूचना के बाद पहुंची सांगीपुर पुलिस ने नीम के पेड़ से शव उतरवाया। उसके बाद पुलिस ने पंचनामा करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौका पर पहुंचे फॉरेंसिक टीम साक्षी संकलन एकत्रित कर रही है। बताया जा रहा है कि दीपक के बगल के गांव के एक लड़की से चार साल लव मैरिज हुई थी।3 साल की एक लड़की भी है। बताया जा रहा है कि एक सप्ताह पहले मृतक के पत्नी ने सांगीपुर पुलिस से शिकायत की थी। शिकायती पत्र में लिखा था। कि उसका पति उसको मारता पीटता है और प्रताड़ित करता है। अपर पुलिस अधीक्षक संजय राय ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है परिजनों ने तहरीर दी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विधित कार्रवाई की जाएगी।

कतर्नियाघाट वन विभाग के आतंक से चमारनपुरवा के ग्रामीणों में खौफ

वन विभाग पर फर्जी तरीके से फंसा कर जेल भेजने का लगाया आरोप

सैकड़ों ग्रामीणों ने तहसील पहुंचकर किया प्रदर्शन

अमन लेखनी समाचार/मिथिलेश जायसवाल

मोतीपुर, बहराइच। वन विभाग लगातार नई नई कहानियों को गढ़कर चर्चा में बना रहता है। जहां वन्य जीवों की मौत पर तरह-तरह की बयान बाजी कर मामले को रफा दफा कर देता है वही इस बार संदिग्ध परिस्थितियों में हुए तेंदुए की मौत के मामले को लेकर फर्जी तरीके से ग्रामीणों को फंसाकर जेल भेज दिया है यह आरोप चमारन पुरवा के ग्रामीणों ने तहसील में प्रदर्शन कर लगाए हैं। वही कतर्नियाघाट में तैनात एसडीओ तथा मुर्तिहा में तैनात रेंजर पहले से भी विवादित रह चुके हैं इन पर उत्पीड़न का कई लोगों द्वारा आरोप पूर्व में लगाया जा चुका है। शनिवार को कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के मुर्तिहा वन रेंज के अन्तर्गत ग्राम लालबोझा के मजरा चमारनपुरवा गांव से लगभग 200 मीटर की दूरी पर आशाराम के गन्ने के खेत किनारे शौच गये ग्रामीणों ने मृत पडे तेंदुए का शव देखा जिसकी सूचना ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान लालबोझा शांती देवी व उनके प्रतिनिधि संतोष कुमार को दिया था। प्रधान प्रतिनिधि संतोष ने इसकी सूचना सेमरी घटही चौकी पर तैनात वन दरोगा गणेश शंकर शुक्ला को दी जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी। स्थलीय जांच के बाद वन विभाग की टीम तेंदुए के शव को रेंज कार्यालय लाकर डाक्टरों की टीम से पोस्टमार्टम कराया गया। डीएफओ बी शिवशंकर द्वारा बताया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आंतरिक रक्तस्राव से तेंदुए की मौत होने का कारण बताते हुये यह बताया गया कि तेंदुए के मिले शव से 10 मीटर की दूरी पर एक कुत्ते का आधा खाया शव बरामद हुआ है और कुत्ता पालने वाले 4 लोग घर से फरार है। वन विभाग की टीम आरोपियों को चिन्हित कर शीघ्र गिरफ्तार करेगी। वन विभाग की टीम ने मंगलवार की रात चमारनपुरवा पंहुचकर बालकराम बुधई राजेन्द्र को घर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है बुधवार की सुबह मिहीपुरवा तहसील पंहुचे सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुषों तथा परिजनों ने वन विभाग पर कई आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि वन विभाग तानाशाह रवैया अपना रहा है और पूरे गांव के लोगों को परेशान कर रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वन विभाग ने फर्जी तरीके से फंसा कर हमारे तीन लोगों को जेल भेजा दिया है। कई अन्य और लोगों को गिरफ्तार करने के लिए रात में छापेमारी कर रहे हैं। महिलाओं ने बताया कि वन विभाग के कर्मियों ने महिलाओं के साथ भी मारपीट और अभद्रता की है न्याय के लिए उन्होंने तहसील में प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया तथा आगे की लड़ाई के लिए हुंकार भरी है।आपको बताते चलें कि कतर्नियाघाट के एसडीओ रमेश चौहान को विशेष सचिव राम केवल के निरीक्षण के दौरान सही जवाब ना दे पाने पर कड़ी फटकार खानी पड़ी थी। और विशेष सचिव ने एसडीओ के खिलाफ रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजने की बात कही थी। और मुर्तिहा में तैनात रेंजर रत्नेश कुमार पर वन अधिकार समिति के पदाधिकारी सरोज गुप्ता के साथ अभद्रता करने व रेंज कार्यालय में बिठाकर जुमार्ना वसूलने का आरोप लग चुका है। वही डीएफओ बी शिव शंकर ने ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया।

फेसबुक पर हुई दोस्ती, लालच मे फंसा कर किया अपहरण

पुलिस ने किया उद्धार,अभियुक्तो को गाडी सहित किया बरामद

संतोष मिश्रा/मो. कौसर

बहराइच। नेपाली युवक पेशल खत्री निवासी ओखलडुन्गा लिखु गांव पालिका वार्ड नंबर सात नेपाल ने फेसबुक पर एक भारतीय नागरिक राजू यादव जो छद्म नाम है से दोस्ती की। दो महीने तक मैसेंजर पर बात की, बातो बातो मे आईफोन कम मूल्य पर खरीदवाने का लालच देकर राजू उर्फ रिजवान खान ने साठ हजार नेपाली रुपए लिए और फोन देने का लालच देकर गाडी मे बैठाकर अपने साथ लेकर चल दिए। नेपाली युवक को जबरदस्ती गाडी मे बैठाकर पांच लाख देने के बाद ही छोडने की धमकी दी, जिस पर साथ आये साथी ने जमुनहा पुलिस को सूचित कर दिया। तत्काल जमुनहा पुलिस नेपाल ने रूपईडिहा पुलिस से सम्पर्क कर मदद मांगी। कोतवाल शमशेर बहादुर सिंह ने पुलिस टीम भेजकर अपहरित युवक और तीन अभियुक्तो को लखीमपुर जिले के जंगल से बरामद कर लिया। विधिक कार्यवाही कर मुल्जिमो को न्यायालय भेज दिया गया।

राम की भक्ति में झूमे नगर वासी

नानपारा नगर में निकाली गई शोभायात्रा

भगवान श्री राम का किया गया राज्याभिषेक

अमन लेखनी समाचार/संतोष मिश्रा

बहराइच। अयोध्या में श्री राम लाल की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में रामलीला समिति नानपारा के तत्वाधान में रामलीला चबूतरा पुरानी बाजार से एक भव्य शोभा यात्रा नगर भ्रमण के लिए जिसमें हजारों की संख्या में भक्तगण जय श्री राम का उद्घोष करते हुए झूमते गाते नजर आए शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण राम दरबार की झांकी, शिव पार्वती की झांकी व राधा कृष्ण की झांकी रही। शोभायात्रा में हजारों की संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे जिससे संपूर्ण नगर राममय नजर आ रहा था। रामलीला समिति नानपारा के संरक्षक श्रीनिवास गुप्ता की अध्यक्षता में रामलीला समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष चिरंजी लाल यज्ञसैनी, उपाध्यक्ष ऋषभ अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, मोहित कसौधन, डॉक्टर शिव कृष्ण गुप्ता कोषाध्यक्ष शिवम गुप्ता छोटू, विपिन कुमार एवं रामलीला समिति के महामंत्री रजनीश रस्तोगी सत्या, मनीष पांडे सहित समिति के तमाम सदस्य उपलब्ध रहे।

नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बालिका शिक्षा व सशक्तिकरण का दिया संदेश

अमन लेखनी समाचार

बाबागंज, बहराइच। जन समुदाय को बालिका शिक्षा व सशक्तिकरण के लिए प्रेरित करने तथा बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर ईक्टिविटी के अंतर्गत विकास क्षेत्र नवाबगंज के रुपईडीहा व बाबागंज बाजार में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इसदौरान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा पंजीकृत नुक्कड़ नाटक की टीम द्वारा नाटकों की संगीतमय प्रस्तुतियों के माध्यम से जनमानस को बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, डीबीटी से प्राप्त धनराशि से बच्चों को यूनिफॉर्म, जूता-मौजा, बैग आदि सुविधाएं दिलाने के लिए प्रेरित किया। टीम के सदस्यों ने स्थानीय भाषा बोली में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों के दिलों में बेटियों के प्रति संवेदना उत्पन्न करने के साथ-साथ बालिका शिक्षा के महत्व को भी बताया। खंड शिक्षा अधिकारी राधेश्याम वर्मा ने कहा कि हमें बेटा-बेटी में किसी प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए बल्कि बेटियों को बेटों के समान ही उन्नति के अवसर सुलभ कराना चाहिए जिससे कि वे अपने जीवन में शीर्ष स्थान प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि आप बेटियों को विद्यालय अवश्य भेजें इस दौरान एआरपी सुनील कुमार, राकेश मौर्या,शिक्षक अरविंद वर्मा,जितेंद्र शर्मा,वैभव सिंह बिसेन,विनोद गिरी,धर्मेंद्र, आनंद भूषण मिश्र,शाजदा खातून,मोहम्मद सलीम, एजाज अहमद,अजय कुमार सहित भारी संख्या में बच्चे व अभिभावक उपस्थित रहे।

दो अलग-अलग थाना क्षेत्र के परिषदीय विद्यालय का ताला तोड़ हुई चोरी

अमन लेखनी समाचार

बाबागंज, बहराइच। रूपईडीहा एवं नवाबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय कुतुबद्दीनपुर व बीजेगांव के परिषदीय स्कूल का ताला तोड़ अज्ञात चोरो द्वारा बीती 23-24 रात्रि एमडीएम खाद्यान व बर्तन, विद्यालय अभिलेख, चटाई, कुर्सी आदि सामान उठा ले गए। रूपईडीहा थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय कुतुबद्दीनपुर इंचार्ज प्रधानाध्यापक रोबिन राठी व नवाबगंज थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय बीजेगांव की प्रधानाध्यापिका सालिहा बेगम ने बताया कि विद्यालय सम्बंधित कागजात, एमडीएम सामान चोरी कर ले गए। विद्यालय समयानुसार जब सुबह विद्यालय पहुंचे तो देखा कि विद्यालय के कमरे एवं कार्यालय का ताला टूटा हुआ है। सम्बंधित विद्यालयों के इंचार्ज प्रधानाध्यापक एवं ग्राम प्रधान ने खंड शिक्षा अधिकारी नवाबगंज को चोरी की घटना से सम्बंधित सूचना दी है। चोरी के सम्बन्ध में थाना प्रभारी नवाबगंज राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया है कि चोरी की जानकारी मिली है जल्द ही चोरी की घटना का खुलासा किया जायेगा।

उप जिलाधिकारी व तहसीलदार ने पीसीएस बनी बेटी के पिता को किया सम्मानित

अमन लेखनी समाचार

कैसरगंज, बहराइच। बेटियां भी किसी से कम नहीं। बहराइच जिले का नाम रोशन करने वाली बेटी समिस्था सिंह 16 रैंक हासिल करके अपने जिले का नाम रोशन किया है। इनके पिता कुमार विजयंत सिंह बबलू कैसरगंज मुख्यालय से महज 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम गुथिया के रहने वाले हैं जो कैसरगंज अस्पताल के बगल में दवा का व्यवसाय करते हैं। इन्होंने अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने बच्चों को पढ़ाया है। वह मेहनत रंग लाई समीस्था सिंह ने बहराइच जिले ही नहीं पूरे इलाके का नाम रोशन किया है। इस खुशी के मुकद्दस मौके पर एसडीएम कैसरगंज पंकज दीक्षित तहसीलदार अजय कुमार यादव ने उनके पिता कुमार विजयंत सिंह बबलू को तहसील में सम्मानित किया और ढेर सारी शुभकामनाएं मुबारकबाद भी दिया।

नेपाली अपहृत युवक को 24 घंटे के अंदर सकुशल किया बरामद

अमन लेखनी समाचार

बहराइच। सरहदी थाना रूपईडीहा पुलिस ने एक नेपाली अपहृत युवक को 24 घंटे के अंदर सकुशल बरामद कर लिया है। रुपईडीहा थाना प्रभारी शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि एक नेपाली युवक पेसल खत्री पुत्र गिरबहादुर खत्री निवासी लीखू गांव पालिका वार्ड न0 7 जिला ओखल ढुंगा राष्ट्र नेपाल जो फेसबुक के जरिए कुछ भारतीय युवकों के संपर्क में आया था। जिनसे उनकी सोशल मीडिया के जरिए बातचीत हो रही थी। सोमवार को अपहरणकर्ता युवकों ने नेपाली युवक को लालच देकर रूपईडीहा बुलाया और उन्हें अपहरण कर लिया और जान से मारने के उद्देश्य से जंगल की तरफ ले गए तभी नेपाली पुलिस के जरिए रुपईडीहा पुलिस को यह जानकारी दी गई। तत्परता से रुपईडीहा पुलिस ने एक टीम बनाकर अपहरण कताओं के पीछे लगा दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अपहरण कर्ता स्विफ्ट डिजायर गाड़ी संख्या यूपी 15 बीबी 6500 से अपहरण कर ले गए थे। मुखबिर से सूचना मिली कि एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी अनटहवा जंगल की तरफ जाती दिखाई दी। फौरन पुलिस की टीम पीछा करते हुए अंटहवा जंगल पहुंची। जहां पर अपहृत नेपाली युवक को वाहन में उसके हाथ पीछे बांधकर बैठाए हुए थे। तभी पुलिस ने सतर्कता से अपहरणकर्ता सहित अपहृत युवक को बरामद कर लिया। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान कमाल पुत्र बस्लू निवासी सिसैया जनपद लखीमपुर, मोनू खान पुत्र जव्वाद खान निवासी करमपुरवा जनपद लखीमपुर, रिजवान खान पुत्र करार खान निवासी मुंडा थाना निघासन जनपद लखीमपुर को गिरफ्तार किया गया है। विधिक कार्रवाई के बाद नेपाल पुलिस के हवाले अपहृत युवक को कर दिया गया और पकड़े गए अभियुक्तों को न्यायालय बहराइच रवाना किया गया।

विधायक प्रतिनिधि ने मधवापुर में अनियमितता पर दोबारा करायी सड़क की जांच

विधायक की शिकायत पर दो जांच टीमें मौके पर पहुंची जांच करने

अमन लेखनी समाचार/मिथिलेश जायसवाल

बहराइच। सड़क निर्माण मे अनियमितता को लेकर विधायक ने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी इसके बाद मौके पर पहुंची जांच टीम ने लापरवाही के साथ जांच की जिससे शिकायत करता असंतुष्ट रहे। बलहा विधायक सरोज सोनकर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बलहा विधानसभा के ग्राम मधवापुर में पीडब्ल्यूडी के द्वारा 1.30 करोड से जमुनापुर सम्पर्क मार्ग सडक का नव निर्माण कार्य की जांच की मांग की थी। विधायक का आरोप था कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी की जा रही है।विधायक की ओर से कुछ दिन पूर्व अपने विधायक प्रतिनिधि को मौके पर भेजा था। विधायक प्रतिनिधि ने सैकड़ों की संख्या में मौजूद ग्रामीणों के सामने पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता/अवर अभियंता से सडक की गुणवत्ता की जांच करायी। जांच में सडक निर्माण कार्य में जीएसबी तथा पत्थर में काफी मात्रा में बालू मिट्टी मिली पायी गयी तथा सडक की चौड़ाई कम मिली और सडक निर्माण में प्रयोग पत्थर बहुत ही घटिया किस्म का मिला। विधायक प्रतिनिधि ने सड़क निर्माण में प्रयोग की जा रही घटिया सामग्री मिट्टी, बालू को हटाकर पत्थर, डस्ट डालकर गुणवत्ता पूर्ण सडक निर्माण कराने हेतु विभागीय अधिकारियों को कहा। जिसके बाद विधायक बलहा ने पूरी स्थिति से मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए सडक को गुणवत्ता अनुसार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया।

मुख्यमंत्री से शिकायत के बाद शासन की ओर से जांचटीम गठित की गयी। शिकायत के बाद सड़क निर्माण में गुणवत्ता सुधार होता न देख विधायक अधिकारियों को पुनः मौके की जांच का निर्देश दिये। विधायक के निर्देश पर जिलाधिकारी की ओर से अलग से भी एक जांच टीम और गठित की गयी।जांच टीम के साथ विधायक बलहा प्रतिनिधि आलोक जिंदल भी दोबारा मौके पर पहुंचे जहां दोनो जांच टीम की मौजूदगी में दोबारा सड़क निर्माण की जांच की गयी। जांच के दौरान सड़क निर्माण में प्रयुक्त सामग्री एवं रोड की लम्बाई चौड़ाई तथा अन्य मानको का निरीक्षण किया। इसी के साथ जांच टीम के सदस्यों ने सड़क निर्माण कार्य में विभिन्न स्थानो पर गड्ढा कर सेम्पल भी एकत्र किया। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि आलोक जिंदल ने कहा कि विधानसभा बलहा के ग्राम मधवापुर में जमुनापुर सम्पर्क मार्ग के सडक का निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग करा रहा है जिसमें घटिया सामग्री तथा गुणवत्ता विहीन सडक निर्माण की शिकायत बार बार क्षेत्रीय ग्रामीणों की ओर से की जा रही थी। ग्रामीणों की शिकायत पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ मौके पर जाकर जांच की गयी। मौके पर सडक निर्माण में काफी अनियमितता पायी गयी है। निर्माण कार्यवका सैमपल लिया गया है।विधायक की शिकायत पर मौके पर जांच करने हेतु शासन की ओर से और जिलाधिकारी की ओर से अलग अलग जांच टीमें बनायी गयी जिसमें शासन की ओर से गठित जांच टीम में निर्माण खंड प्रथम के अधिशासी अभियंता अमर सिंह, सहायक अभियंता अजीत सिंह सहायक अभियंता अंकित वर्मा मौजूद रहे तथा जिलाधिकारी बहराइच की ओर से गठित जांच टीम में पी.डब्लू.डी. प्रांतीय खंड प्रथम के अधिशासी अभियंता अमर सिंह, अधिशासी अभियंता आर.ई. डी. एस.के सिंहा, उपजिलाधिकारी मोतीपुर संजय कुमार, सहायक अभियंता अभिषेक शाही मौजूद रहे।

सुल्तानपुर में जंगली सुअरों का आतंक... 6 लोगों पर किया हमला

ग्रामीणों ने एक को पीट-पीटकर मारा, इलाके में दहशत, लाठी-डंडे लेकर तैनात हुए युवक

अमन लेखनी समाचार

सुलतानपुर, सुल्तानपुर में लंभुआ कोतवाली अंतर्गत ज्ञानीपुर में उस समय हड़कंप मच गया, जब यहां दो जंगली सुअरों ने यहां हमला बोल दिया। क्षेत्र में घटना से चीख-पुकार मच गई। जंगली सुअर के हमले में महिला समेत आधा दर्जन गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। गांव निवासी मोहर्रम अली (75) आज दोपहर अपना खेत देखने जा रहे थे। बताया जा रहा है कि तभी एक जंगली सुअर ने उन पर हमला बोल दिया। हमले में वे घायल हुए और उन्होंने अपना बचाव किया तो जंगली सुअर भागा। दो की संख्या में मौजूद जंगली सुअरों ने भागते हुए इस्लामुन निशा (50) पत्नी नाजिम अली, मोहम्मद सोहराब (30) पुत्र मोहम्मद तौफीक, मोहम्मद गुफरान (30) पुत्र कलीम उल्लाह और मोहम्मद सुल्तान (32) पुत्र समद अली को अपना निशाना बनाया। इस बीच ये सभी गंभीर रूप से घायल हुए और अपने बचाव में गुहार लगाया। तब भारी संख्या में ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर निकले। ग्रामीणों ने घेर कर एक जंगली सुअर को मार गिराया

चौराहे से चंद कदम की दूरी पर चोरों ने घर में किया हाथ साफ

पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्यवाही की उठाई मांग

अमन लेखनी समाचार/विनोद जायसवाल

बहराइच। पुलिस भले ही रात्रि में गस्त का दावा करती हो लेकिन क्षेत्र में हुई चोरी से पता चलता है कि गस्त सिर्फ हवा हवाई में ही चलती है। रानीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रेमी दास कुट्टी चौराहे से 50 मीटर दूरी पर मोहम्मद शरीफ पुत्र मोहम्मद जहूर निवासी जिगिनिया महिपाल सिंह 23/01/2024 को वजीरगंज अपनी लड़की के यहां गये थे बीती रात चोरों ने घर के बाहर का कुंडा तोड़कर अलमारी में रखा एक चांदी का पाईजेब एक सोने का झाला 20,000 की नगदी तथा कुछ फूल के बर्तन उठा ले गए।

घर से चंद कदम की दूरी पर सराफा दुकान के बाहर लगे दो कैमरे का तार काट दिया तथा दूसरे दुकान के बाहर लगे कैमरे में एक व्यक्त लगभग 1:00 बजे से 1:30 के बीच आता जाता दिखाई दे रहा है।

पुलिस गस्त करते रह गये चोरों ने घर मे हाथ साफ कर दिया। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। थानाध्यक्ष आरती वर्मा से बात किया गया उन्होंने बताया की मौके के जांच कर ली गई है उचित कार्रवाई की जाएगी।

सुल्तानपुर में संतोष की मौत के मामले में केस दर्ज

सुसाइड-मर्डर के पहलू पर जांच शुरू, एक लड़की समेत कई संदिग्ध हिरासत में

अमन लेखनी समाचार

सुलतानपुर, सुल्तानपुर में संतोष की मौत के मामले में केस दर्ज हो गया है। हैदराबाद से आना संतोष को रास नहीं आया। घर पहुंचने के ठीक 18 घंटे बाद उसकी संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। उसकी कनपटी पर गोलियां दागी गई थी। ये हत्या है आत्महत्या इसमें अभी केस उलझा हुआ है। हालांकि पिता ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया है। संतोष की कॉल रिकॉर्ड से मामले का खुलासा होगा। बताया जा रहा है इसी आधार पर पुलिस ने एक लड़की और कुछ संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। दरअस्ल कादीपुर कोतवाली के जवाहर नगर मोहल्ले का निवासी संतोष कुमार निषाद (18) शनिवार को दो बजे के आसपास हैदराबाद से घर लौटा। एक घंटे बाद ही वो शमशाद कुरैशी के बाग में हैंडपंप की बोरिंग करने गया। जहां काम खत्म होने के बाद शाम को वो घर लौटा और रात 7:30 बजे के आसपास किसी ने उसके मोबाइल पर कॉल किया। इस पर वह घर से निकला और लौटकर नहीं आया। रातभर परिजन उसे तलाशते रहे लेकिन कुछ पता नहीं चला। रविवार सुबह मोहल्ले के बच्चे जब क्रिकेट खेलने गए तो कस्बे के बाईपास से लगभग 200 मीटर दूर झाड़ियों में एक युवक का शव पड़ा देखा। इसकी सूचना कस्बे के लोगों को दी। घटना की जानकारी होने पर लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। मृतक की बाईं कनपटी पर गोली के निशान थे। उसी तरफ एक असलहा पड़ा था। दाहिने हाथ में मोबाइल था। मौके पर संतोष के परिजन भी पहुंचे। परिजनों ने शव की शिनाख्त की। पिता ने बताया कल दो बजे संतोष हैदराबाद से आया। तीन बजे घर से काम के लिए निकला। शाम 7:30 बजे फोन आया तो ये काम पर से निकल गया।

संक्षेप

सड़क हादसे में घायल युवक की उपचार के दौरान मौत

बस का इंतजार कर रही युवक को कार ने टक्कर मार कर था रौंदा, अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

खुर्जा, चोला थाना क्षेत्र में दो सप्ताह पूर्व हुए सड़क हादसे में घायल युवक ने निजी अस्पताल में अल सुबह उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है। सूचना पर आए परिजन पोस्टमार्टम हाउस पर शव लेने के लिए पहुंचे हैं। थाना पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।चोला थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव नगला इलाहाबाद निवासी रामवृक्ष सिंह ने बताया की दो हफ्ते पूर्व चोला थाना क्षेत्र के गांव खवासपुर के रास्ते पर बस का इंतजार कर रहे सतीश चंद पुत्र कलुआ को एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार कर रौंद दिया था। सड़क हादसे में घायल को पुलिस ने सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां से उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कर दिया था।उपचार के दौरान घायल युवक की निजी अस्पताल में अलसुबह मौत हो गई। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। जिसके बाद परिजन मृतक का शव लेने के लिए पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे।मृतक के परिजनों की तैयारी पर पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

खुर्जा की प्राची ने बनाई प्रभु राम की पेंटिंग

प्राण प्रतिष्ठा समारोह पेंटिंग में दशार्या, मिल चुके हैं कई अवार्ड

खुर्जा, बुलंदशहर में खुर्जा निवासी प्राची अग्रवाल ने भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को पेंटिंग के माध्यम से बेहद ही खूबसूरत अंदाज में दशार्या है। इससे पूर्व वह अयोध्या स्थित भगवान राम के मंदिर की भी पेंटिंग तैयार कर चुकी हैं। प्राची की तस्वीरों को देश में ही नहीं विदेशों में भी पुरस्कार मिल चुका है।खुर्जा के मोहल्ला पीली कोठी निवासी प्राची अग्रवाल ने भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पूर्व प्रभु श्री राम दरबार की पेंटिंग बनाई। इसमें प्रभु श्री राम संग माता सीता सिंहासन पर विराजमान नजर आ रही हैं।यह पेंटिंग राजस्थान की प्रसिद्ध फड़ शैली में बनाई गई है।प्राची ने कहा कि 500 साल के वनवास का आज अंत हो गया है। भगवान राम टेंट से निकलकर अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं।जिसका साक्षी पूरा विश्व बनेगा।राम करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। पेंटिंग में राम दरबार में भगवान राम को केंद्रीय आकृति के रूप में दशार्या गया है।उनके बायीं ओर माता सीता हैं।दायीं ओर लक्ष्मण और उनके सामने हनुमान जी हैं।कभी-कभी अन्य दो भाइयों अर्थात भरत और शत्रुघ्न को भी दशार्या जाता है। यह पेंटिंग दिव्य परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम, सम्मान को दिखाती है। इससे पूर्व खुर्जा की प्राची चित्रकारी में कई अवार्ड अपने नाम कर चुकी हैं। फ्रांस में आयोजित वाटर कलर पेंटिंग में प्रतिनिधि मंडल ने प्राची को विजेता घोषित किया। रिपब्लिकन आफ कोसोवो में भी उनकी पेंटिंग चयनित हुई।

राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में स्वाथ्य केंद्र अमौली में जागरूक कार्यक्रम का हुआ आयोजन

एक पिता की है संतान बेटा बेटी एक समान स्लोगन के साथ हुआ कार्यक्रम का शुभारंभ

अमन लेखनी समाचार

फतेहपुर। जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमौली में डा पुष्कर कटियार के तत्वाधान में राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य पर जागरूक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।एक पिता की है संतान,बेटा बेटी एक समान स्लोगन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।आशा कर्मियों को घर घर जाकर महिलाओं एवम ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया।गर्भवती महिलाओ एवम नवजात शिशुओं की माताओं को पोषण संबंधी विस्तृत जानकारी एवम बेहतर स्वास्थ्य के लिए एवम साफ सफाई के लिए जागरूक किया गया।गर्भ में पल रहे भ्रूण की जांच एवम हत्या रोकने के लिए जागरूक किया गया।मुख्य अतिथि के रूप में खंड विकास अधिकारी विपुल विक्रम सिंह,चिकित्साधिकारी डा पुष्कर कटियार,अमित मिश्रा बालविकास पुष्टाहार विभाग सुपरवाइजर अंजू उत्तम,नम्रता गुप्ता शिक्षक शैलेंद्र सचान ने महत्वपूर्ण जानकारियां देते हुए जच्चाझबच्चा के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी।इस मौके पर प्रमुख रूप से अभय प्रताप सिंह,ओमप्रकाश एवम अन्य स्वास्थ्य कर्मियों समेत स्वेता तिवारी,प्रतिभा, शिवकांती,रमा पांडेय,अर्चना अग्निहोत्री,विमलेश,सावित्री,आशा सविता अवस्थी समेत लगभग एक सैकड़ा आशा कर्मियों एवम महिलाए मौजूद रही।

भ्रष्टचार विभाग के खिलाफ सत्याग्रह पर बैठे समाज सेवी

शिकायत कर्ता राष्ट्रिय स्वम सेवक को दी फर्जी मुकदमे में फसाने की धमकी

अमन लेखनी सामाचार

ललितपुर/भूमि संरक्षण विभाग में खेत तालाब में कागजी तालाब को लेकर हुए भ्रष्टाचार की चचाएं चरम पर की जा रही है विभाग में हुए करोड़ों के घोटाले की जांच हेतु जब शिकायतकर्ता हरपाल सिंह चंदेल ने जिला अधिकारी को भ्रष्टाचार के खिलाफ खेत तालाबों की जांच कर अधिकारियों पर कार्यवाही हेतु पिछले 27दिसम्बर को ज्ञापन सौंपा जिस पर अपर जिला अधिकारी अंकुर श्रीवास्तव के आदेश के निर्देशन पर मुख्य विकास अधिकारी ने जांच टीम गठित कर कार्यवाही का आश्वासन दिया गठित टीम द्वारा विभाग में हुए भ्रष्टाचार में सन्लिप्त अधिकारियों की जा रही जांच से भूमि संरक्षण विभाग में हड़कंप मच गया जांच में फसने वाले ज़िम्मेदार कर्मचारियों ने शिकायत कर्ता को शिकायत वापिस नहीं लेने पर झूँठे केसों में फसाने की धमकियां देना शुरू कर दिया था जिसको लेकर शिकायत कर्ता हरपाल सिंह चंदेल को मिली धमकी पर पुनः अपर अधिकारी लव कुश त्रपाठी को ज्ञापन सौंप कर भूमि संरक्षण विभाग में भ्रष्टचार में उच्च अधिकारियों द्वारा जांच कराने की मांग की, पर विभागीय अधिकारियों द्वारा सरकार की छवि धूमिल कर रहे कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं करने पर भूमि संरक्षण विभाग के खिलाफ सामूहिक सत्याग्रह पर बैठकर आन्दोलन शुरू कर दिया सत्याग्रह में हरपाल सिंह चंदेल,मन मोहन चोवे पार्षद, अमित दीक्षित रजवारा, प्रमोद बबेले कनई सिंह सेंगर, नवनीत शर्मा, महेश पटेरिया, सुरेन्द्र कुमार, नितिन, नरेंद्र सिंह, नरेंद्र राजा जाखलोन , आशीष, माधव और निखिल द्ववेदी आदि पहुंचे

मेरठ में मतदाता जागरूकता के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन

फिटनेस के प्रति युवाओं को किया जागरूक, म्यूजिक बैंड और सेल्फी पॉइंट आकर्षण का केंद्र रहा

अमन लेखनी समाचार

मेरठ, मेरठ में मतदाता जागरूकता के लिए जिला प्रशासन की और से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। जिसमें अलग-अलग आयु वर्ग के लोगों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में सेल्फी पॉइंट और म्यूजिक बैंड आकर्षक का केंद्र रहा। इसके बाद आयुक्त सेल्वा कुमारी जे और डीएम दीपक मीणा ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को शपथ दिलाई। मतदाता जागरूकता के लिए आयोजित मैराथन दौड़ पुलिस लाइन से प्रारंभ की गई। जो सर्किट हाउस तिराहा, इमली चौराहा, साकेत चौराहा, गऊशाला तिराहा से होते हुए गंगानगर नाला कट तक पहुंची, यही से यू-टर्न होते हुए इसी मार्ग से पुलिस लाइन गेट नंबर - तीन के अंदर पुलिस लाइन में संपन्न हुई। मेरी बेटी मेरी शान में बड़ी संख्या में लोगों ने सेल्फी ली। आयुक्त सेल्वा कुमारी जे ने कहा कि हेल्थ फिटनेस, उत्तर प्रदेश दिवस, मतदाता दिवस के प्रति युवाओं को जागरूक करने के लिए संयुक्त रूप से इस दौड़ का आयोजन किया गया है। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को मतदान की शपथ दिलाई। इस मौके पर म्यूजिक बैंड द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। डीएम व सीडीओ ने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया।

पुलिया से पानी में गिरने के कारण युवक की मौत

अमन लेखनी समाचार शिवम सिंह

कुरारा,हमीरपुर।थाना क्षेत्र के डामर गांव में दोपहर में शराब के नशे में पुलिया से पानी में गिर जाने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया।परिजन उसे सी एस सी लेकर आए जहां चिक्तिसक ने मृत घोषित कर दिया।पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है।क्षेत्र के डामर गांव निवासी सुनील कोरी उम्र 35 वर्ष पुत्र छन्नी लाल दोपहर में सड़क किनारे बनी पुलिया में नशे की हालत में बैठा था। अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाने से वह पानी में गिर गया। तथा काफी देर तक पानी में पड़ा रहा जब तक जानकारी हुई तो परिजन उसे लेकर सी एस सी में आए । जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।मृतक भट्ठे पर मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी पत्नी सीमा व अर्श 6 व ऋचा 3वर्ष मायके में है।घटना की जानकारी उसे दी गई है।इस घटना से परिजनों में शोक का माहौल व्याप्त है। वही पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है।

ठंड लगने से वृद्ध की हुई मौत

अमन लेखनी समाचार

कुरारा, हमीरपुर। क्षेत्र के डामर गांव निवासी वृद्ध की बीती शाम सर्दी के चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। क्षेत्र के डामर गांव निवासी सुख्खा अनुरागी सुबह शौच क्रिया करने बाहर खेती की तरफ गया था। सर्दी लगने से वह बीमार हो गया।परिजन उसे दोपहर में अस्पताल ले गए जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित किया। आज शोक के माहौल में अंतिम संस्कार किया गया।

जालौन में ट्रक ने लोडर को मारी टक्कर

हादसे में किसान की मौत, मटर बेचकर वापस लौट रहा था, घर-परिवार में मचा कोहराम

अमन लेखनी समाचार

जालौन, जालौन में झांसी-कानपुर नेशनल हाईवे 27 पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक लोडर में टक्कर मार दी। इस हादसे में उसमें सवार किसान की मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्होंने कड़ी मशक्कत करने के बाद दोनों को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। यहां चिकित्सकों किसान को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे की हालत नाजुक देख उसे कानपुर रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने मृतक किसान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। घटना एट कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एनटीपीसी पावर प्लांट के पास की है। बताया गया कि शनिवार को झांसी जनपद के एरच थाना क्षेत्र के ग्राम कुडरी निवासी उपेंद्र सिंह (32वर्ष) अपनी मटर की फसल बेचने के लिए कस्बा एट की मंडी में लोडर ड्राइवर शैलू (22 वर्ष) निवासी ग्राम मेलहटा थाना एरच झांसी के साथ आया था। मंडी में मटर बिकने के बाद रात करीब 10 बजे दोनों लोग वापस गांव लौट रहे थे। इस दौरान जैसे ही वो नेशनल हाइवे के कस्बा एट के पास बने एनटीपीसी पवार प्लांट के पास पहुंचा तभी कोहरे की वजह से तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी लोडर में टक्कर मार दी, जिसमें लोडर का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षत्रिग्रस्त हो गया और उसमें फंसकर किसान उपेंद्र की मौत हो गई जबकि ड्राइवर शैलू गंभीर रूप से घायल हुआ।

सरूरपुर में बाइक सवार ने युवती का किया अपहरण

- ग्रामीणों ने दोनों को पकड़कर पीटा, पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी तहरीर

अमन लेखनी समाचार

सरधना, सरूरपुर में एक युवती को 2 बाइक सवार ने अगवा कर लिया। इस दौरान ग्रामीणों की भीड़ ने दो युवकों को पकड़ लिया। उनकी पिटाई करके पुलिस को सौंप दिया। मामला दो संप्रदाय से जुड़ा होने के कारण गांव में तनातनी का माहौल है। पुलिस मामले की जांच की बात कर रही है।युवती के पिता की ओर से दी गई तहरीर में बताया गया है

कि रविवार को बाइक सवार दो युवक एक कॉलेज पढ़ने जा रही युवती को अगवा करके ले गए। इस दौरान ग्रामीणों ने बाइक सवारों का काफी पीछा किया, लेकिन दोनों आरोपी युवती को अगवा कर ले जाने में कामयाब रहे। मौके पुलिस फोर्स इकट्ठा हो गए और ग्रामीणों की भीड़ भी जुट गई।इसी दौरान दबाव पड़ने पर युवक वापस युवती को गांव छोड़ने आए तो जमा ग्रामीणों की भीड़ में दोनों बाइक सवार को दबोच लिया और उनकी जमकर धुनाई कर दी।पिटाई के बाद मरणासन्न हालत में युवकों को पुलिस को सौंप दिया।युवती के पिता की ओर से पिटाई कर पुलिस को सौपे गये दोनों युवकों के खिलाफ कार्रवाई करने को तहरीर दी है।

सोनभद्र में भाजपाइयों ने वॉल पेंटिंग का किया आयोजन

चंडी तिराहे पर भाजपा जिला प्रभारी और जिलाध्यक्ष की मौजूदगी में भाजपा कार्यकताओं ने बनाया वाल पेंटिंग

अमन लेखनी समाचार

सोनभद्र, सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में चंडी तिराहे पर भाजपा जिला प्रभारी और जिलाध्यक्ष की मौजूदगी में भाजपाइयों ने वॉल पेंटिंग करके कमल का फूल बनाया।

जानकारी के अनुसार सोनभद्र के चंडी तिराहे के पास वरिष्ठ व्यवसायी सत्यपाल जैन के आवास की बाउंड्री वॉल पर सोनभद्र के नवनियुक्त जिला प्रभारी अनिल सिंह और जिलाध्यक्ष नंदलाल गुप्ता समेत वरिष्ठ भाजपा कार्यकताओं ने वॉल पेंटिंग करके कमल का फूल बनाया। एक बार फिर भाजपा सरकार का स्लोगन भी दिया। इस दौरान नव नियुक्त जिला प्रभारी अनिल सिंह ने कहा कि भगवान श्रीराम की कृपा से और मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में भाजपा सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी। भाजपा जिलाध्यक्ष नन्दलाल ने कहा कि प्रत्येक बूथ तक दीवार लेखन का कार्य किया जाना है। जनप्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख जिला पदाधिकारी व मण्डल प्रभारी मण्डल अध्यक्ष व बूथ तक के पदाधिकारियों को अपने द्वारा दीवाल लेखन का कार्य करना है। मोदी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा हर गांव नहीं अपितु हर परिवार के प्रत्येक व्यक्ति तक कि जा रही है। जनता भी मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित है। इस मौके पर भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष बलराम सोनी, सत्यपाल जैन, कृष्ण मुरारी गुप्ता, रुबी गुप्ता, नगर मण्डल अध्यक्ष बलराम सोनी, सत्यपाल जैन, प्रो. गोपाल सिंह, कृष्णमरारी गुप्ता, रामसुन्दर निषाद, सहित अन्य कई महत्वपूर्ण कार्यकताओं की गरिमामयी उपस्थिति रही,

आयोजन 250 जगह भंडारों का आयोजन, प्रभात फेरी में जय श्रीराम के जयकारों की रही गूंज

अनूपशहर के प्राचीन बालाजी मंदिर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन

अमन लेखनी समाचार

अनूपशहर, अयोध्या में श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है।जिसको लेकर संपूर्ण देश के राम भक्तों में अपार उत्साह व्याप्त है।प्रत्येक राम भक्त इस पल को भव्य बनाना चाहता है।श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अनूपशहर के मोहल्ला नेहरू गंज स्थित बाजार, इमली बाजार आदि को गुब्बारों एवं फूल मालाओं से भव्य तरीके से सजाया गया।वहीं दूसरी ओर बाजार में विभिन्न व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को भव्य तरीके से फूल माला एवं बिजली की झालर लगाकर सजाया है।22 जनवरी यानि आज अनूपशहर में भी दीपावली जैसा माहौल है।यहां के प्राचीन बालाजी मंदिर में राम भक्तों द्वारा राम दरबार एवं देवी लक्ष्मी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा थोड़ी देर में की जाएगी।इस दौरान राम भक्तों द्वारा अनूपशहर में एक प्रभात फेरी भी निकाली गई। जोकि प्राचीन बालाजी मंदिर से प्रारंभ होकर नेहरू गंज होते हुए वापस मंदिर पर ही आकर समाप्त हुई।

प्रभात फेरी के पश्चात भंडारे एवं 56 भोग का आयोजन भी किया जायेगा। शोभायात्रा आयोजन कमेटी से जुड़े राम भक्त शिवओम गुप्ता ने बताया कि राम भक्तों द्वारा आज दोपहर बाद बबस्टर गंज स्थित हनुमान मंदिर से मोहल्ला मानक चौक स्थित प्राचीन भगवान रामचंद्र जी के मंदिर तक भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जिसमें स्कूली बच्चों के घोष होंगे। रामायण पर आधारित झांकियां होंगी एवं सैकड़ों की संख्या में महिलाओं द्वारा खाटू श्याम निशान यात्रा निकाली जाएगी। इसके अलावा अखाड़े होंगे। जिसमें अखाड़ेबाज अपना शौर्य दिखाएंगे। इसके अलावा पूरे कस्बे में आतिशबाजी होगी एवं पूरे कस्बे में विशेष लाइटिंग की गई है। आज संपूर्ण अनूपशहर तहसील में जगह-जगह राम भक्तों द्वारा अयोध्या में श्री राम लाल की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। मोहल्ला मानक चौक स्थित रामचंद्र भगवान के मंदिर में 5 क्विंटल देसी घी के प्रसाद का भोग लगाया जाएगा। अनूपशहर तहसील के मंदिरों में सुंदरकांड एवं अखंड रामायण पाठ चल रहे हैं। आज अनूपशहर के सभी गंगा घाट 11 हजार दीयों से जग मग होंगे। मोहल्ला केदारशाह निवासी अरुण गर्ग की पत्नी रेनु गर्ग ने राम भक्ति में लीन होकर 11 हजार बार राम का नाम लिख दिया।रेनू गर्ग ने बताया कि वह भगवान राम की परम भक्त हैं। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बन रहा है। जिसके उपलक्ष्य में उन्होंने 11 हजार बार राम का नाम डायरी में लिखा।

मेरठ में सरेराह लड़की का मर्डर

- छेड़खानी का विरोध करने पर मारी गोली; घरवालों ने सड़क पर शव रख किया हंगामा

अमन लेखनी समाचार

मेरठ, मेरठ में एक लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह घर से मेडिकल स्टोर पर पर दवा लेने जा रही थी। रास्ते में एक लड़के ने उसके साथ छेड़खानी की। इस पर लड़की ने उसका विरोध किया। इसके बाद दबंग ने तमंचा निकालकर लड़की पर फायर कर दिया। गोली लगते ही लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिवार वालों ने शव को सड़क पर रखकर जमकर हंगामा किया। जानकारी मिलने पर भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया। मामला फलावदा थाना क्षेत्र का है। 17 साल की लड़की मोहल्ला शहीद भगत सिंह की रहने वाली थी। सोमवार सुबह वह घर से दवा लेने के लिए निकली थी। तभी उसके पड़ोस में रहने वाले उस्मान के बेटे फरहान ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने लड़की के साथ छेड़छाड़ कर दी। लड़की ने इसका विरोध किया, तो फरहान ने तमंचा निकालकर लड़की पर तान दिया। इसके बावजूद जब लड़की नहीं मानी, तो फरहान ने उसे गोली मार दी। इससे लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के लोगों ने जैसे ही गोली चलने की आवाज सुनी, तो उस तरफ भागे। लोगों ने देखा कि लड़की खून से लथपथ पड़ी है। लोगों ने तुरंत घटना की जानकारी लड़की के घरवालों को दी गई।

संक्षेप

गाजीपुर जिले में छूटा पशु से परेशान किसान भाइयों, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं

गाजीपुर जिले में छुटा पशुओं ने किसानों के दिन का चैन और रात की नींद हराम कर रखा है। प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी केवल बयानबाजी कर थोथा दिलाशा दे रहे हैं। उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद की कहानी पूस की रात आज भी गांवों में चरितार्थ हो रही है। अपने खेतों में जुताई, बुआई, सिंचाई, दवाई, उर्वरक छिंटाई कर फसल तैयार करने वाले किसानों की उम्मीदों पर एक दिन या रात में आवारा पशु पानी फेर दे रहे हैं। किसान फोन से,मौखिक या कर्मचारियों के मार्फत प्रशासन को अन्ना पशुओं की सूचना दे रहे हैं लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इसके प्रति थोड़े भी संवेदनशील नहीं हैं। मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर के किसान महीनों से अन्ना पशुओं से परेशान हैं। इसकी सूचना उन्होंने एसडीएम, बीडीओ को दिया, लेकिन उनके स्तर से कोई प्रयास नहीं हुआ।इस बीच दो तिथियां ऐसी भी व्यतीत हुईं जो इन्हें जिलाधिकारी द्वारा दी गईं थीं आवारा पशुओं को लेकर। बुधवार को एकजुट हुए किसानों ने अन्ना पशुओं को एकत्रित कर एक हाते में बंद कर दिया। इसके बाद इन्हें गौशाला में पहुंचाने के लिए गांव में भिक्षाटन भी किया। किसान संघर्ष समिति के संयोजक सुरेश प्रधान ने इस दौरान कहा कि इन पशुओं ने किसानों को खून के आंसू रुलाया है। खेती की लागत इतनी अधिक हो गई है कि किसान कर्जदार हो जा रहा है और उस पर अन्ना पशु फसल बर्बाद कर दे रहे हैं।किसान कैसे कर्ज भरेगा और कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा।जिस कार्य में कोई आमदनी नहीं हो उसे अधिकारी कर्मचारी करना नहीं चाहते। अब अन्ना पशु नासूर बन गए।

मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस द्वारा प्रतिदिन चलाया जा रहा महिला जागरूकता व सशक्तिकरण अभियान

सोनभद्र।शासन की मंशा के अनुरूप महिलाओं / बेटियों को स्वावलंबी और सुरक्षित बनाने तथा उनके अधिकारों के सम्बंध में जागरुक करने व उनके साथ घटित होने वाले अपराधों पर प्रभावी रोकथाम करते हुए उनमें सुरक्षा/आत्मविश्वास की भावना जागृत करने के उद्देश्य से एक समग्र अभियान मिशन शक्ति अभियान का चतुर्थ चरण चलाया जा रहा है । इसी क्रम में आज दिनांक 24.01.2024 को नारी सुरक्षा/ नारी सम्मान /नारी स्वावलंबन के प्रति पुलिस अधीक्षक सोनभद्र डॉ0 यशवीर सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की शक्ति दिदि/महिला बीट आरक्षियों/ एण्टीरोमियों टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत अपने-अपने बीट/ गांव /स्कूल /कॉलेज में जाकर मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत चौपाल लगाकर बालिकाओं एवं महिलाओं की शिकायतों की सुनवाई की गयी तथा मिशन शक्ति के सम्बन्ध में सभी बालिकाओं/महिलाओं को जागरूक किया, उनकी समस्याओं को सुनते हुए उन्हें मनचलों, अराजक तत्वों से निपटने तथा आत्मरक्षा करने के लिए आवश्यक आत्मरक्षात्मक गुण सिखाये गये इसके साथ ही उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओं/ महिलाओं की सुरक्षा एवं सहायता हेतु संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों जैसे- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076झमुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा, साइबर हेल्पलाइन 1930 तथा थानों पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण से संबंधित उ0प्र0 शासन की विभिन्न योजनाओं व प्राथमिकताओ के सम्बन्ध में पंपलेट वितरीत कर जागरूक किया गया ।

रुचि सिंह ने डिप्टी जेलर बन परिवार एवं क्षेत्र का नाम किया रोशन

अमन लेखनी समाचार

लखनऊ।उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित यूपी पीसीएस परीक्षा-2023 के अंतिम चयन परिणाम में कई होनहारों ने सफलता का परचम लहराया है।इनमें उन्नाव के सोहरामऊ थाना क्षेत्र के निधान खेड़ा गांव की रहने वाली रूची सिंह का नाम भी शामिल है।रूची का चयन डिप्टी जेलर के पद पर हुआ है। बेटी की इस कामयाबी से परिजन बेहद खुश हैं और लोग घर जाकर उन्हें बधाई दे रहे हैं। किसान परिवार की बेटी रूची सिंह ने कड़ी मेहनत और लगन से तीसरे प्रयास में यूपी पीसीएस परीक्षा में सफलता हासिल कर अपनी प्रतिभा को साबित कर दिखाया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने गाँव और समाज को गौरवान्वित किया है और क्षेत्र का मान भी बढ़ाया है। यूपी पीसीएस 2023 में डिप्टी जेलर के पद पर चयनित रूची सिंह शुरू से ही मेधावी छात्रा रही हैं।इन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई अवध कॉलेजिएट दरोगा खेड़ा से की है।इसके बाद लखनऊ में नवयुग गर्ल्स कालेज से बीएससी की। रूची सिंह ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माताझपिता, के अलावा पारिवारिक सदस्यों और अपने शिक्षकों को दिया है। अपनी इस सफलता पर रूची ने कहा है कि मुझे आज बहुत खुशी हो रही हैं कि मैंने अपने परिवार, समाज और गांव का नाम रोशन किया है। उन्होंने युवाओं से कहा है कि मैं चाहती हूं कि सभी युवा मेहनत से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें, सफलता आपका इंतजार कर रही है।रूची सिंह के पिता नीलेश सिंह एक किसान हैं।वो खेतीझकिसानी के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।नीलेश सिंह का कहना है कि बेटी रूची ने डिप्टी जेलर बनकर मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है, एक पिता के लिए इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है। वहीं रूची की मां गृहणी हैं। उनका कहना हैं कि मुझे विश्वास था, कि मेरी बेटी एक दिन अफसर जरूर बनेगी। मैं आज बहुत खुश हूं।

रूची सिंह के बड़े भाई रंजीत प्रताप सिंह कएर अफसर है। वैसे तो रूची के अलावा उनके परिवार में सरकारी सेवाओं में अफसर बनने का सिलसिला बरकरार है। रूची सिंह के 22 वर्षीय छोटे भाई जयदीप प्रताप सिंह भी UPPCS परीक्षा में पहली बार में ही इंटरव्यू तक पहुँच गए थे लेकिन उनका सलेक्शन नहीं हो पाया, बेटी रूची की इस सफलता से परिवार और गांव में खुशी का माहौल है। उनके घर परिश्तेदार, सगेझसंबंधियों के अलावा आसपास के गांवों के लोग बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। गांव वाले अपनी इस होनहार बेटी का सम्मान व स्वागत कर रहे हैं, ताकि क्षेत्र के अन्य युवा भी उससे प्रेरणा ले सकें।

कपूर्री ठाकुर का जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायी - अनिल दुबे

अमन लेखनी समाचार

लखनऊ । राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश कार्यालय में रालोद नेताओं द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सामाजिक न्याय के पुरोधा जननायक कपूर्री ठाकुर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गयी। इस अवसर राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे तथा रालोद नेताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय और आरक्षण को शोषितों, वंचितों और पीडितों तथा गरीबों व महिलाओं के उत्थान के लिए ढाल बनाने वाले जननायक भारत रत्न स्व0 कपूर्री ठाकुर का जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायी है। किसान मसीहा स्व0 चौधरी चरण सिंह के साथ उनके जीवन संघर्ष की यात्रा हम सबके लिए प्रेरणादायी रहेगी। उन्होंने समता के सिद्धांत को अमलीजामा पहनाया था। श्री दुबे ने जननायक स्व0 कपूर्री ठाकुर को उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर भारत रत्न देने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि भारत सरकार को लम्बे समय से किसानों के मसीहा व पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग को भी शीघ्र ही पूरा करना चाहिए।उनके करोडों करोड अनुयायी प्रतीक्षा कर रहे हे कि स्व0 चौधरी साहब को भारत रत्न देने की मांग कब पूरी होगी? इस अवसर पर प्रदेश महासचिव अम्बुज पटेल, मनोज सिंह चौहान, प्रदेश महासचिव रमावती तिवारी, प्रीति श्रीवास्तव, श्रम प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद पटेल, छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष अमन पाण्डेय ने कपूर्री ठाकुर को समाज के पिछड़े वर्ग को सम्मानजनक जीवन जीने की प्रेरणा देने वाला बताया। महानगर अध्यक्ष चंद्रकांत अवस्थी, जिलाध्यक्ष रामसेवक रावत, मण्डल अध्यक्ष रणविजय मौर्य, महेश पाल धनगर, रमेश कश्यप, तेजपाल सिंह ने भी कपूर्री ठाकुर के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला।

रॉबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा एक वाहन बोलेरो में 31 पेटी विस्फोटक सामग्री के साथ एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

सोनभद्र। पुलिस अधीक्षक डॉ0 यशवीर सिंह के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय व क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा निर्धारित समय के पूर्व अपेक्षित मानकों एवं सुरक्षा परिस्थितियों के प्रतिकूल दशा में परिवहन के आरोप में एक अभियुक्त सूर्यभान हरिजन पुत्र रामजीयावन हरिजन, निवासी नैना नदी चौराहा, थाना हनुमान, जिला रीवा मध्य प्रदेश के कब्जे से 31 पेटी में 775 किलो विस्फोटक सामग्री (लेदर जिलेटिन एक्सप्लोसिव) बरामद कर गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 67/2024 धारा 286 भादवि में 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

डॉ. संदीप के मुख्य आतिथ्य में हुई प्रभु श्रीराम की भव्य आरती

प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर शोभायात्रा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन

अमन लेखनी समाचार/हेमंत यादव

झांसी।भगवान श्रीराम की अयोध्या में हो रही प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर तालबेहट में भी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव श्री राम उत्सव समिति के तत्वाधान में मनाया गया और श्री हनुमान जी महाराज हनुमानगढ़ पर कार्यक्रम का शुभारंभ सुंदरकांड पाठ से हुआ और 21 जनवरी को नगर में विशाल शोभा यात्रा जिसमें हाथी, घोड़ा सहित बग्गी पर भगवान श्री राम के स्वरूप विराजमान थे मातृशक्तियां भी सैकड़ों की संख्या में मंगल कलश लेकर चल रही थी और युवा साथी डीजे की धुन पर श्री राम के भजन पर नृत्य करते हुए चल रहे थे मानो ऐसे लग रहा था जैसे पूरा नगर और क्षेत्र राममय हो गया है। राम जी के आने की खुशी में पूरे नगर ने पूरे उत्साह के साथ माता बहनों ने पुष्पवर्षा की और ड्रोन से भी शोभा यात्रा पर फूलों की वर्षा की गई। साथ ही साहू समाज के मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर का विमान भगवान श्री राम जी की शोभायात्रा में सबसे आगे चल रहा था। जिसका नगर वासियों ने पूरे उत्साहित के साथ तिलक लगाकर अभिनंदन किया यह शोभायात्रा श्री राम जानकी मंदिर केवट समाज हजारिया महादेव मंदिर प्रांगण से प्रारंभ हुई और राजा मर्दन सिंह की मूर्ति के पास से बाजार होते हुए नया बस स्टैंड पहुंची जहां से मुख्य मार्ग पर जगह-जगह स्वागत नगरवासियों ने किया और भगवान के भजनों पर पूरे नगर में भाव विभोर होकर स्वागत हुआ व अभिनंदन किया गया। नगर में सर्वसमाज के द्वारा जगह-जगह तोरण द्वार बनाकर भगवान का स्वागत और अभिनंदन किया गया और अंत में महा आरती के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस अवसर पर महा आरती में प्रमुख रूप से सदर विधायक रामरतन कुशवाहा, उपजिलाधिकारी राम यादव, पुलिस क्षेत्राधिकारी कुलदीप कुमार, जिला प्रचारक वीर सिंह, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी, अध्यक्ष नगर पंचायत पुनीत सिंह परिहार सहित नगर के गणमान्य नागरिक एवं समिति अध्यक्ष कमल प्रकाश गुप्ता ने भगवान श्री राम की आरती उतार कर अभिनंदन किया और सभी का धन्यवाद स्थापित किया। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में हमारे प्रभु श्री राम की प्रतिष्ठा के अवसर पर सभी वानरों की साज सज्जा की गई और श्री रामचरितमानस का पाठ संपन्न हुआ, कार्यक्रम का संचालन उदय प्रकाश गुप्ता एवं आभार विजय मिश्रा द्वारा व्यक्त किया गया साथ ही विशाल भजन संध्या में टीवी सिंगर वैशाली रायककवार के भजनों ने धूम मचाई और इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर संदीप सरावगी एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी कुलदीप कुमार प्रभारी, निरीक्षक कोतवाली विनोद मिश्रा सहित नगर के विशिष्ट जन उपस्थित रहे कार्यक्रम का शुभारंभ जबलपुर से आए हुए कलाकारों द्वारा भगवान श्री राम जी की आरती के साथ संपन्न हुआ और तत्पश्चात अतिथियों द्वारा भगवान श्री राम जी की आरती उतारी गई श्राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगीश इस भजन पर श्रोताओं व धर्म प्रेमी बंधुओ ने जमकर नृत्य किया और उसके बाद वैशाली रायकवार टीवी सिंगर द्वारा अनेक भजन प्रस्तुत किए गए भजनों पर श्रोताओं ने भरपूर आनंद लिया और सभी लोगों ने मत मुक्त हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा भगवान राम कण-कण में है राम हर मन में हैं। सनातन धर्म में भगवान के रूप में प्रभु श्री राम को विशेष रूप से पूज्यनीय माना जाता है भगवान राम मयार्दा पुरुषोत्तम थे उन्होंने एक पिता, पुत्र, पति और मित्र के रूप में मानव जीवन के समक्ष एक महान आदर्श प्रस्तुत किया। जहां पिता के वचन के सम्मान हेतु वनवास चले गए वहीं पत्नी माता सीता के लिए रावण जैसे आताताइयों का वध भी किया साथ ही उन्होंने मित्र के रूप में सुग्रीव, विभीषण और हनुमान जी का भी मान रखा। आज के युग में मानव मूल्यों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है संयुक्त परिवार प्रथा समाज से समाप्त होती जा रही है, यही हमारे विकारों का मुख्य कारण है। मानव रूपी ईश्वर के अवतार हों या हमारे महापुरुष हमें उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए जिससे हमारा जीवन सफल हो सके। इस अवसर पर प्रमुख रूप से देवेंद्र प्रकाश लिटोरिया, महेंद्र बिलगाईयां, अरविंद साहू, विजय मिश्रा, विजय किशोर सोनी, प्रशांत श्रीवास्तव, राजेश सोनी, रत्नेश बिलगईयां, संतोष गुप्ता, मनीष झा, मनोहर सिंह बुंदेला, मनीष, महेंद्र सोनी, छोटू अवस्थी, शैलेंद्र रावत, कैलाश कौशिक, राज लिटोरिया, सुरेंद्र लिटोरिया, नवीन गुप्ता, मनोज रैकवार आदि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे साथ ही श्री राम उत्सव समिति के महिला समिति से मुक्ता सोनी, ममता, ज्योति बिलगईया, ज्योति मिश्रा, किरण शिवहरे, गीता साहू, रेखा साहू, अंजना सिंह, सरोज चौबे, प्रियांशी चतुर्वेदी, रंजना सिंह, लक्ष्मी शर्मा, पूनम बिलगइया, पूनम पाठक सहित अनेक महिलाएं उपस्थित रहीं।

जिला पंचायत अध्यक्ष व डीएम ने किया उत्तर प्रदेश दिवस का शुभारंभ

अमन लेखनी समाचार

गाजीपुर जिले में 24-26 जनवरी, तक तीन दिवसीय आयोजित प्रदर्शनी उ0प्र0 प्रदेश दिवस का शुभारम्भ मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह एंव जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने संयुक्त रूप से रायफल क्लब परिसर में फीता काटकर, दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। यह प्रदर्शनी जनपद में 24-26 जनवरी आयोजित रहेगी। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर परिसर में विभिन्न विभागो द्वारा प्रदर्शनी लगायी गयी थी। प्रदर्शनी का अवलोकन करने के पश्चात मुख्य अतिथि मंचाशीन होने के उपरान्त कार्यक्रम में मा0 मुख्य अतिथि का स्वागत स्कूली बच्चियो द्वारा स्वागतगीत गाकर किया गया। समारोह में विभिन्न स्कूल के छात्र-छात्राओ द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर राईफल क्लब सभागार में लखनऊ से मा0 मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर किये गये सम्बोधन का लाइव प्रसारण भी दिखाया एवं सुना गया। पर्यटन सूचना विभाग द्वारा पर्यटन से सम्बंधी लघु फिल्म की प्रस्तुति भी दी गयी। मुख्य अतिथि इस अवसर पर बधाई एवं शुभकामना देते हुए अपने सम्बोधन में कहा कि जो अपने अतीत की श्रेष्ठता को स्मरण एवं सम्मानित नही करता उसका इतिहास भविष्य में मिट जाता है। हम अपने विरासत की श्रेष्ठता का स्मरण नही करेगे तो कभी हम भविष्य का इतिहास नही बना सकते। उन्होने कहा कि यह देश कृषि प्रधान देश है लेकिन जनपद गाजीपुर पूरी तरह कृषि प्रधान जनपद है। उद्योगो को कृषि उत्पादन से जोड़ने का काम किया जाये जिससे बड़ी संख्या में रोजगार उलब्ध होगा। इससे किसानो का उत्पाद बढेगा, किसाना को उत्पाद की लाभकारी कीमत भी मिलेगी। उन्होने कहा कि भारत में किसानो को जितना शक्तिशाली बनायेगे भारत उतना ही समृद्ध बनेगा। समाज धर्म और राजधर्म जब एक साथ मिलकर कार्य करते है तो राष्ट्रधर्म का निर्माण होता है। इस कार्यक्रम में जिला के साहित्यकारों कवि, खिलाड़ी, आंगनबाड़ी सफाईकर्मी, आशा ,स्वम सहायता समूह एवं अन्य विभागों को स्मृति चिन्ह एवं सम्मान पत्र सम्मानित किया गया। इसमें समस्त जनपद के अधिकारी गण उपस्थित थे

उत्तर प्रदेश दिवस का भव्य तरीके से हुआ आयोजन

अमन लेखनी समाचार

- विधायक सदर ने दीप प्रज्जवलन व मॉ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर उत्तर प्रदेश दिवस कार्यक्रम का किये शुभारंभ
- उत्तर प्रदेश दिवस के आयोजन की मुख्य थीम उत्तर प्रदेश के समृद्धि व संस्कृति विरासत को संजोना- सदर विधायक
- आजादी से जुड़ें देशभक्ति, लोक गायन व लोक नृत्य की सुन्दर प्रस्तुति स्कूल के छात्र-छात्राओं द्वारा की गयी

सोनभद्र। विधायक सदर भूपेश चैबे ने डायट परिसर उरमौरा राबर्ट्सगंज में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का दीप प्रज्जवलन व मॉ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किये, कार्यक्रम के दौरान विधायक सदर ने अपने सम्बोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य स्थापना दिवस दिनांक 24 जनवरी,2018 से निरस्तर आयोजित किये जा रहे हैं, उक्त आयोजन के माध्यम से समस्त विभागों द्वारा अपनी योजनाओं से सम्बन्धित स्टाल लगाकर सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, उत्तर प्रदेश दिवस के आयोजन की मुख्य थीम उत्तर प्रदेश की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को संजोना है, निवेश एवं रोजगार पर आधारित संगोष्ठियां उद्यमी सम्मेलन के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है, इस आयोजन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के समृद्धि व सांस्कृतिक विरासत को संजोने का कार्य किया जा रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश की स्थापना से लेकर अब तक की विकास यात्रा से सम्बन्धित अभिलेख प्रदर्शनी भी सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा लगायी गयी है, जिसके माध्यम से लोग उत्तर प्रदेश के इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर इस देश के अमर शहीद बलिदानियों व देश की आजादी में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों को याद व नमन करने का दिन है और उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर, देश के जन-जन तक उनकी गौरव गाथा को पहुंचाने के साथ ही उनके त्याग व बलिदान से देश के नौजवानों को प्रेरणा लेने की जरूरत है, इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बन्देमातरम्गीत का गायन एवं आजादी से जुड़ें लोकगीत गायनों की सुन्दर प्रस्तुति राजकीय बालिका इण्टर कालेज, मॉ वैष्णो माडर्न पब्लिक स्कूल, विन्ध्य कन्या महाविद्यालय, डी0ए0वी0 कालेज, श्री एकेडमी आदिवासी सिल्थम कालेज के छात्र-छात्राओं द्वारा समूह गायन, रासलीला, देशभक्ति, नृत्य,कौव्वाली, मॉ सरस्वती की वन्दना आदि की मनमोहक प्रस्तुति की गयी, मॉ वैष्णो माडर्न स्कूल की कक्षा-2 की छात्रा अराध्या नन्दन ने भरत नाट्यम नृत्य की सुन्दर प्रस्तुति की गयी, आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाये गये प्रदर्शनी लगायी गयी थी, इस दौरान खादी ग्रामोद्योग, जिला प्रोबेशन, महिला कल्याण विभाग, एन0आर0ए0ए0 एम0, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, पर्यटन विभाग सहित अन्य सरकारी योजनाओं से सम्बन्धित स्टाल लगाये गये थे। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी सौरभ गंगवार, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) सुभाष चन्द्र यादव जिला प्रोबेशन अधिकारी सुधाशु शेखर शर्मा, जिला कृषि अधिकारी हरिशंकर मिश्र, पर्यटन सूचना अधिकारी बृजेश कुमार यादव, जिला विद्यालय निरीक्षक आर0पी0 यादव, जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी किरन श्रीवास्तव, अपर जिला सूचना अधिकारी विनय कुमार सिंह, डायट के प्रवक्त नीरज, राजेश मौर्या, सुनील मौर्या, जिज्ञाषा यादव, ऋचा ओझा, शबनम सहित वरिष्ठ शिक्षक, शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का संचालन आनन्द त्रिपाठी द्वारा किया गया।

चौरा बिजौरा के जंगलों में धड़ल्ले से हो रहा है अवैध पत्थर का खनन, जिम्मेदार मौन

ब्यूरो चीफ - सद् दाम कुरैशी

जुगैल क्षेत्र अवैध रूप से कार्य करने वालों के लिए बना सेफ जोन

अमन लेखनी समाचार

सोनभद्र - तु डाल डाल मैं पात पात की कहावत को चरितार्थ कर जुगैल थाना क्षेत्र में धड़ल्ले से पत्थर का अवैध खनन किया जा रहा है सबकुछ जानते हुए भी जिम्मेदार मौन हैं जिसको लेकर सवालिया निशान खड़ा हो हो रहा है प्राप्त जानकारी के मुताबिक जुगैल थाना क्षेत्र के चौर बिजौरा के जंगलों में काफी दिनों से अवैध पत्थर का खनन किया जा रहा है खननकर्ता क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर बोल्डर की सप्लाई कर धनार्जन कर रहे हैं वहीं मौजूदा समय में गायघाट के मखोली टोले में ग्राम पंचायत द्वारा कराये जा रहे कार्य में इन्ही अवैध बोल्डर का प्रयोग किया जा रहा है अब सवाल उठता है कि जब इस कार्य का स्टीमेट बना तो क्या स्थानीय मटेरियल का स्टीमेट बना था कार्यप्रभारी को क्या नहीं दिखाई दे रहा है कि निर्माणकार्य में मटेरियल कहां का लग रहा है बताया जाता है कि क्षेत्र में जितने भी नाली, पुलिया, चेकडैम आदि का निर्माण कराया जा रहा है सभी कार्यों में अवैध बोल्डर बालू का बेखौफ प्रयोग किया जा रहा है सुत्रो की मानें तो जुगैल थाने में तैनात एक तथाकथित कारखास के इशारे पर इन दिनों बड़ी तेजी से अवैध कार्य फल फूल रहे हैं वहीं वन विभाग के भी जिम्मेदार चुप्पी साधे हुए हैं जिससे लोगों का कहना है कि सब की मिलीभगत से अवैध खनन किया जा रहा है वहीं लोगों का कहना है कि कई बार इसकी शिकायत की गई परंतु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई जिसके चलते अवैध खनन कताओं का कार्य धड़ल्ले से जारी है वहीं जिम्मेदारों की चुप्पी से सरकार की छवि धुमिल हो रही है

विस्फोटक वाहक से 31 पेटी विस्फोटक किया गया बरामद

अमन लेखनी समाचार

सोनभद्र। के रावटसगंज कोतवाली क्षेत्र के हिंदवारी के पास विस्फोटक वाहक से 31 पेटी विस्फोटक बरामद किया गया। यह वरामदगी मुखबिर की सूचना पर की गई दरअसल यह विस्फोटक रीवा मध्यप्रदेश से आ रहा था और ओबरा के लिए जा रहा था लेकिन इस वाहन द्वारा अपने रूट से अलग पाया गया साथ ही सुरक्षा के मानकों को भी ताक पर रख दिया गया जिसको देखते हुए पुलिस ने इसके साथ ही 26 जनवरी को डिलेवरी देनी थी लेकिन यह समय से पहले ही यहां पहुंच गया जिसको लेकर पुलिस हरकत में आई और चालक को गिरफ्तार कर विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर चालक को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पुलिस को इस बात पर अधिक शक हुआ कि यह समय से पहले सप्लाई देने क्यों जा रहा है इसके साथ ही सुरक्षा के मांगों की अनदेखी नक्सल प्रभावित जिला होने और गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यह कार्वाई की गई है साथ ही पुलिस मामले की घटा से जांच कर रही है। लोक सभा चुनाव और गणतंत्र दिवस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सोनभद्र की सीमा से सटे सभी जिलों और राज्यो की पुलिस के द्वारा हाल ही में मीटिंग की गई थी जिसके बाद विस्फोटक वहां द्वारा सुरक्षा के मानकों में बड़ी चूक माना जा रहा है फिरहाल खनन क्षेत्र में प्रयोग होने वाला यह विस्फोटक जहां मिला वहा पर इस वहां के होने का कोई औचित्य नही है जिसको देखते हुए पुलिस मामले की जांच कर रही है। सोनभद्र के रावटसगंज कोतवाली क्षेत्र के हिंदवारी के पास एक ढाबे पर खड़े विस्फोटक वाहन को पुलिस ने चेक किया जिसमें 31 पेटी विस्फोटक बरामद हुआ। पहले तो यह सुरक्षा के मानकों की अनदेखी को देखते हुए पुलिस ने चेकिंग किया इसके बाद पुलिस को जानकारी हुई कि यह रीवा मध्यप्रदेश से आ रहा है और ओबरा जाना है लेकिन जहां यह खड़ा पाया गया वह अपने रूट से अलग रास्ते पर था इतना ही नही इस विस्फोटक की डिलिवरी 26 जनवरी को किया जाना था लेकिन यह 23 जनवरी को ही जिले में पहुंच गया वही जिसके बाद पुलिस ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी, नक्सल प्रभावित जिला होने, और गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा, चुनाव के नजदीक होने आदि विन्दुओं को देखते हुए वाहन चालक को गिरफ्तार कर विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर चालको जेल भेज जा रहा है साथ ही पुलिस यह भी जांच कर रही है क्या वजह थी कि ओबरा खनन क्षेत्र में जाने वाला यह विस्फोटक दूसरे रूट पर पाया गया ।और समय से पहले इसकी डिलेवरी कैसे और क्यो की गयी ।

अमन लेखनी
(हिन्दी दैनिक)

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक श्रीमती अखिलेश सिंह द्वारा अवध एक्सप्रेस प्रकाशन, 434, सिविल लाइन, जेल रोड, उन्नाव, उत्तर प्रदेश से मुद्रित और ग्राम व पोस्ट-बनी, थाना- बन्थरा, लखनऊ-226401 (उ.प्र.) से प्रकाशित।

सम्पादक–
श्रीमती अखिलेश सिंह

समाचार सम्पादक –
रुद्र प्रताप सिंह

समाचार से संबंधित सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र लखनऊ होगा।

मो. - 9838159555, 9935457982

E-mail address
amanlekhaninews@gmail.com

अरबाज खान के हाथ लगी एक बड़ी फिल्म...

मुंबई। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और रेजिना कैसेंड्रा की आगामी फिल्म 'सेक्शन 108' में हाल ही में शूरा खान के साथ शादी के बंधन में बंधे अभिनेता अरबाज खान नजर आएंगे। अभिनेता फिल्म में एक शक्तिशाली व्यवसायी की भूमिका निभाते नजर आएंगे। फिल्म फिलहाल लोनावला में अपने आखिरी शेड्यूल में है। प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए अरबाज ने कहा, 'यह एक बेहतरीन स्क्रिप्ट है और शादी के बाद मुझे ऑफर की गई पहली फिल्म भी है। वास्तव में, यह एक शानदार भूमिका है। 'सेक्शन 108' की टीम वास्तव में ऊर्जावान और अद्भुत है।

लाइफ Style

नोरा

ध्रुव सरजा की फिल्म में हुई एंट्री

एजेंसी ⏭ मुंबई

नोरा फतेही जितना बेहतरीन डांस करती हैं, उतनी ही बेहतरी एक्ट्रेस भी हैं। वह बॉलीवुड कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। अब उनकी झोली में एक कन्नड़ फिल्म भी आ चुकी है। यह फिल्म कन्नड़ इंडस्ट्री के यंग सुपरस्टार ध्रुव सरजा के साथ देखेंगी।

इस फिल्म में संजय दत्त भी विलेन के किरदार में नजर आएंगे। यह एक पैन इंडिया फिल्म होगी। यह फिल्म का टाइटल टीजर अक्टूबर 2022 में जारी हुआ था। ध्रुव सरजा स्टारर इस फिल्म का नाम 'केडी-द डेविल' है। फिल्म से नोहा का फर्स्ट लुक आउट हुआ है। फिल्म के फर्स्ट लुक में नोरा को रेड कलर की ड्रेस में दिखाया गया है, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही हैं। नोरा का अनाउंसमेंट पोस्टर निश्चित रूप से फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा रहा है। पैन-इंडिया फिल्म 'केडी- द डेविल' 1970 के दशक की बेंगलुरु की सच्ची घटनाओं पर आधारित एक पीरियड एक्शन एंटरटेनर है। नोरा फतेही और ध्रुव सरजा के अलावा इसमें शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, रमेश अरविंद और वी रविचंद्रन भी हैं। फिल्म अपराधियों और ठगों के इर्द-गिर्द घूमती है। 'केडी-द डेविल' केवीएन प्रोडक्शंस प्रेम द्वारा निर्देशित व प्रस्तुत है। पैन इंडिया फिल्म तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और हिंदी में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। बात करें वर्कफ्रंट की तो नोरा फतेही जल्द ही विद्युत जामवाल के साथ 'क्रैक- जीतेगा तो जिएगा' में नजर आएंगी। इसमें एमी जैक्सन और अर्जुन रामपाल भी हैं।

हॉलीवुड मसाला

प्रियंका ने साइन की द ब्लफ!

लांस एंजिलिस। ग्लोबल आइकन बन चुकीं प्रियंका चोपड़ा के करियर के सितारे इन दिनों बुलंदियों के शिखर पर हैं। अभिनेत्री बैक-टू-बैक हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स साइन कर रही हैं। 'देसी गर्ल' आखिरी बार एक्शन से लबरेज सीरीज 'सिटाडेल' में नजर आई थीं। वहीं, अभिनेत्री रिचर्ड मैडेन स्टारर इस एक्शन-पैक्ड स्पाई थ्रिलर सीरीज के दूसरे सीजन में भी नजर आने वाली हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब उनके फैंस के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है।

जेम्स गन ने दिया बड़ा अपडेट...

लांस एंजिलिस। डीसी स्टूडियोज के सह-प्रमुख जेम्स गन ने इस बैनर तले बनने जा रही कई फिल्मों को लेकर बड़ा अपडेट फैंस के साथ साझा किया है। हाल ही में थ्रेड्स पर प्रशंसकों के साथ एक बातचीत में उन्होंने उन्होंने जे जे अब्राम्स के सुपरमैन प्रोजेक्ट सहित डीसी यूनिवर्स को लेकर कई जानकारियां दीं। थ्रेड्स पर बातचीत के दौरान उन्होंने पुष्टि की कि अब्राम्स की सुपरमैन एल्सेवर्ल्ड फिल्म अब भी विकास के चरण में है। साल 2021 में यह बताया गया था कि अब्राम्स ता-नेहीसी कोट्स के साथ सुपरमैन रीबूट का निर्माण और साथ ही, इसका लेखन भी कर रहे थे। हालांकि, फिल्म का कोई कथानक सामने नहीं आया था, लेकिन यह बताया जा रहा है कि यह सुपरमैन एक दूसरे यूनिवर्स में मौजूद होगा न कि उसी ब्रह्मांड में जिसे गन सुपरमैन लेगेसी के लिए विकसित कर रहे हैं।

भूमि की फिल्में फरवरी में ही होती हैं रिलीज

मुंबई। भूमि पेडनेकर का नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री की चर्चित अभिनेत्रियों में से एक है। अभिनेत्री इन दिनों अपनी आगामी क्राइम थ्रिलर फिल्म 'भक्षक' को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। अक्सर देखा जाता है कि अभिनेत्री की ज्यादातर फिल्में फरवरी महीने में ही रिलीज होती हैं। वहीं, भूमि की आगामी फिल्म 'भक्षक' भी फरवरी के महीने में रिलीज होने के लिए तैयार है। इस बीच अब अभिनेत्री ने खुलासा किया कि उनकी फिल्में फरवरी के महीने में ही क्यों रिलीज होती हैं? तो चलिए जानते हैं... भूमि पेडनेकर ने एक बातचीत में कहा, 'अभिनय की दुनिया में कदम रखने के बाद से ही फरवरी का महीना मेरे लिए सबसे खास रहा है। मेरी पहली फिल्म 'दम लगा के हईशा' फरवरी में रिलीज हुई थी। इस फिल्म से मुझे बहुत प्रशंसा और सम्मान मिला है।



रिलीज हुआ किरण की मूवी का ट्रेलर...

मुंबई। एक्टिंग की दुनिया से दूर आमिर खान बहुत जल्द फिल्ममेकर के तौर पर वापसी करते हुए नजर आएंगे। लंबे समय से अभिनेता के प्रोडक्शन हाउस में बनी मूवी लापता लेडीज का नाम सुर्खियों में बना हुआ है। इस बीच आमिर की मोस्ट अवेटेड फिल्म का ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है। इस फिल्म की कहानी पत्नी की अदला-बदला के दिलचस्प किस्से पर आधारित है। आइए एक नजर आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव के डायरेक्शन में बनी इस मूवी के ट्रेलर पर डालते हैं। बुधवार को जियो स्टूडियोज ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आमिर खान के बैनर तले बनी फिल्म लापता लेडीज का शानदार ट्रेलर रिलीज किया गया है। स्पर्श श्रीवास्तव स्टारर लापता लेडीज में पत्नी की अदला-बदली की कहानी को बखूबी दर्शाया गया है।

टीवी मसाला

... रो पड़ीं दीपिका, अरुण गोविल भी हुए निराश...

मुंबई। डीडी के रामायण में देवी सीता की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री दीपिका चिखलिया अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के दौरान रो पड़ीं। अभिनेत्री मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रित कई सितारों में से एक थी। उनके साथ शो में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और लक्ष्मण का रोल निभाने वाले सुनील लाहिरी भी शामिल हुए थे। हाल ही में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में, दीपिका न केवल दिखाई दीं बल्कि उद्घाटन के दौरान वो अपने आंसू पोंछती भी नजर आईं। जहां दीपिका अपने आंसू नहीं छिपा सकीं, वहीं अरुण गोविल ने निराशा व्यक्त की कि उन्हें उद्घाटन के दिन दर्शन नहीं मिल सके। रिपोर्ट के अनुसार, अरुण से राम मंदिर पर उनकी प्रतिक्रिया के बारे में पूछा गया और अभिनेता ने कहा, 'सपना तो भैया पूरा हो गया पर मुझे दर्शन नहीं हुए। मैं कुछ नहीं कह सकता इस समय (सपना तो पूरा हो गया लेकिन दर्शन नहीं कर पाया। मैं फिलहाल कुछ नहीं कह सकता)।'

'हिंदुत्व' की आवाज बुलंद करने आ रही हैं रामायण की 'सीता'

मुंबई। 22 जनवरी को पूरा देश राममय हो गया, जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। इस ऐतिसाहिक मौके को देखने के लिए देश के नामी लोग पहुंचे, जिसमें साधु और संतों के अलावा बॉलीवुड और टेलीविजन जगत के सितारे भी शामिल रहे। इस खास दिन 'रामायण' की सीता यानी कि एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया भी शामिल रहीं। इसी हिंदुत्व की बात करते हुए इसके एक अलग पक्ष से युवाओं के दिलों के स्पंदन को महसूस कराने ओटीटी प्लेटफॉर्म मास्क टीवी पर 'हिंदुत्व' फिल्म रिलीज होने वाली है। फिल्म में एक ऐसी लड़की की कहानी कही गई है, जो अपनी संस्कृति को भुलाकर चकाचौंध में अपने अस्तित्व को ही नकारात्मक रूप से देखने लगती है। उसकी जिंदगी में तब सबकुछ बदलता है, जब एक पढ़ा लिखा लड़का उसमें हिंदुत्व के अलख जगाता है। इस 'हिंदुत्व' में हिंदुस्तान की प्राचीन सभ्यताओं के साथ ही वर्तमान के हालात को भी दिखाया गया है।

आलिया, रणबीर-विक्की की जमेगी तिकड़ी....

मुंबई। संजय लीला भंसाली को निर्देशक हैं, जिनकी फिल्मों का फैंस को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की अपार सफलता के बाद अब संजय वापसी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। डायरेक्टर की अगली मूवी का एलान हो गया है, जिसका नाम लव एंड वॉर है। खास बात ये है कि इस मूवी में हिंदी सिनेमा के मशहर कलाकार आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और विक्की कौशल की तिगड़ी बनेगी। लंबे समय से इस बात को लेकर चर्चा काफी तेज थी आखिर कब संजय लीला भंसाली अपने अगली फिल्म का एलान करेंगे। ऐसे में बुधवार 24 जनवरी को विक्की कौशल ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर संजय की अपकमिंग फिल्म की डिटेल्स शेयर कर फैंस की एक्साइटमेंट को बड़ा दिया है। संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म के पोस्ट को शेयर कर विक्की ने लिखा है- आखिरकार मेरा सपना सच हो गया है। इस पोस्ट में संजय की लव एंड वॉर का नाम और रिलीज डेट लिखी है, साथ ही नीचे आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और विक्की कौशल के सिग्नेचर नजर आ रहे हैं।

शादी की सालगिराह पर लुटाया प्यार

मुंबई। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और नताशा दलाल की बुधवार शादी की तीसरी सालगिराह थी। अपनी एनिवर्सरी के इस खास मौके पर एक्टर ने सोशल मीडिया पर पत्नी नताशा के साथ एक प्यारी सी फोटो शेयर की है। फैंस उनकी इस फोटो पर दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और उनकी पत्नी नताशा दलाल अक्सर साथ स्पॉट किए जाते हैं, जो दोनों के बीच की शानदार बॉन्डिंग को दर्शाता है। वरुण और नताशा की लव स्टोरी भी काफी अनोखी रही है। एक्टर होने के नाते वरुण की बड़ी फैन फॉलोइंग हैं, वहीं नताशा लाइमलाइट से दूर ही रहती हैं। वरुण धवन की पहली मुलाकात 6वीं क्लास में नताशा दलाल से पहली बार हुई थी।

जब भी मैं हनुमान जी के गेटअप में आता हूं, मेरे मुंह से गालियां नहीं निकलतीं हैं

पर्दे पर भगवान का रोल करके कोई बन गया वेजिटेरियन तो किसी का गुस्सा हुआ कम



गुस्सा आना कम हो गया : निर्भय

पर्दे पर कई शोज में बजरंग बली का किरदार निभा चुके ऐक्टर निर्भय वाधवा एक बार फिर सीरियल 'श्रीमद् रामायण' में भगवान हनुमान का किरदार निभा रहे हैं। उनका कहना है, 'मुझमें इस किरदार को निभाने के बाद बहुत ज्यादा बदलाव आया है। आप बुरी आदतों से खुद-ब-खुद दूर हो जाएंगे। अगर आप कुछ सेवन करते हैं, नॉन वेज, सिगरेट, शराब छूट जाएंगे। मैं ये सब पहले भी नहीं लेता था, लेकिन हनुमान जी का रोल करने के बाद तो मैं इन चीजों को दूर से हाथ जोड़ता हूं। मेरी अंदर से इच्छा ही नहीं होती है। मुझे गुस्सा आना कम हो गया।

गालियां भूल जाता हूं : दानिश

'कर्माधिकारी शनिदेव' में हनुमान का किरदार निभा रहे दानिश अख्तर के मुताबिक, हनुमान जी का किरदार एक इंसान को बदल देता है। हर कोई हनुमान जी का किरदार नहीं कर सकता, क्योंकि यह करना आसान नहीं है। जब भी मैं हनुमान जी के गेटअप में आता हूं, मेरे मुंह से गालियां नहीं निकलतीं। '

मुंबई। एक्टिंग के बारे में कहा जाता है कि हर किरदार कलाकार की जिंदगी में अपना कुछ न कुछ हिस्सा छोड़कर जाता है। वह कलाकार की जिंदगी में कोई न कोई बदलाव लाता है। कम से कम पर्दे पर भगवान श्रीराम, शिव जी, हनुमान, मां सीता, पार्वती आदि की भूमिकाएं निभाने वाले एक्टर्स तो इस बात से पूरी सहमति जताते हैं।

आध्यात्म से हो गया जुड़ाव : शुभा

इन दिनों सीरियल 'शिव शक्तिः तप, त्याग तांडव' में मां पार्वती का रोल कर रहीं ऐक्ट्रेस शुभा राजपूत भी इस किरदार को खास मानती हैं। उन्होंने कहा- बकौल शुभा, यह मेरे लिए सिर्फ एक भूमिका नहीं है, यह मेरे लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है। इस किरदार को रियल बनाने के लिए मैंने रोज मेडिटेशन करना और पौराणिक किताबें पढ़नी शुरू की थीं। फिर जिस आदत को मैंने एक रोल के तैयारी के रूप में शुरू किया था, अब वह जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। अब रोज अध्यात्म करना और पौराणिक किताबें पढ़ना मेरी दिनचर्या का हिस्सा है। इस वजह से मेरे व्यक्तित्व में गंभीरता और मेरे चंचल मन में सुकून आया है। मैं खुद में ये पॉजिटिव बदलाव महसूस किया है।

शांत और पॉजिटिव हो गईः शिव्या

हिमाचल की कुड़ी एक्ट्रेस शिव्या पठानिया ने पर्दे पर माता सीता, लक्ष्मी, पार्वती जैसे कई पौराणिक किरदार निभाए हैं। उनका मानना है कि ऐसे किरदार भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। सीरियल 'बाल शिव' में पार्वती और 'राम सिया के लव कुश' में माता सीता का रोल करने वाली शिव्या का कहना है, 'ऐसे किरदार निभाने से आप बहुत सारी क्वॉलिटीज अपने अंदर लाते हैं। आपमें कुछ बुराई भी होती है, तो आप उसे ठीक करने लग जाते हैं। जैसे, सिया के रोल के लिए आपका मन शांत होना चाहिए और वही बदलाव मैं भी अपने अंदर लेकर आई।

पहाड़ों में जाकर ध्यान करने वाला था : हिमांशु

एक्टर हिमांशु सोनी भी छोटे पर्दे पर राम, शिव, बुद्ध, विष्णु जैसे भगवान वाले किरदारों को जीवंत कर चुके हैं। लेकिन सालों पहले 'बुद्धः राजाओं के राजा' में भगवान बुद्ध की भूमिका का उन पर निजी तौर पर भी गहरा असर हुआ था। हिमांशु ने बताया था, 'बुद्ध का किरदार निभाने के दौरान मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं बुद्ध के जोन से निकल ही नहीं पा रहा था। मैंने यहां तक सोच लिया था कि मैं हिमाचल में पहाड़ों में जाकर मेडिटेशन करूंगा। हालांकि, कुछ समय बाद यह अहसास हो गया कि दुनिया में रहने के लिए इंसान ही रहना होगा। आप भोले बन गए, तो जी नहीं पाओगे। तब मैंने खुद को संभाला कि आप ऐक्टर ही रहो। जब तक किरदार निभाओ, तब तक ही उसमें रहो।'